



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 19—सितम्बर 25, 2009 (भाद्रपद 28, 1931)
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 19—SEPTEMBER 25, 2009 (BHADRA 28, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

(वी-548एल) मेजर पंकज वर्मा, आर वी सी, 05 अप्रैल 2009

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर 2009

ए वी बागुर
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 513, दिनांक 20 जुलाई 2009—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति
उनके नाम के सम्मुख दी गई तिथि से करते हैं:—

वायु सेना

नियमित सेना

सं. 514, दिनांक 20 जुलाई 2009—माननीय राष्ट्रपति महोदय,
निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं:—

स्थायी कमीशन

भारतीय वायु सेना

मेजर से मूल लेफ्टि. कर्नल के रैंक में

वि. कमां. से ग्रु. कैप्ट (टी एस) के मूल रैंक में

एफ (एन) शाखा

(वी-534एल) मेजर विकास ठाकुर, आर वी सी, 05 अप्रैल 2009

आर पी कुमार (16839), एस शेखर (16837)—04 जून 2008 से
प्रभावी

(वी-539के) मेजर एस के चोवे, आर वी सी, 05 अप्रैल 2009

प्रशासन शाखा

(वी-540वाई) मेजर एच के तिवारी, आर वी सी, 05 अप्रैल 2009

(वी-541एफ) मेजर वी राजकुमार, आर वी सी, 05 अप्रैल 2009

एम एच सिद्दीकी (17049), एस कुमार (17052), डी विरमानो
(17037), आर वाष्णीय (17032), एस आर बरधान (17055), डी एन
पाण्डा (17050), ए एस डोंगरे (17031), एम ए श्रीधर (17027),
ए के नायर (17048), आर कपूर (17039), एस बैनर्जी (17066),

(वी-545एक्स) मेजर सुखबीर सिंह, आर वी सी, 05 अप्रैल 2009

(वी-546ए) मेजर पी दीनाथयालन, आर वी सी, 05 अप्रैल 2009

एस मुखोपाध्याय (17061), एस करुणाकर (17042), सी जे एस मन्हास (17040), सी पी निगम (17054), वी के तिवारी (17058), जे के चान्दना (17043), एस के नाथ (17046), एस के मित्तल (17051)---29 दिसम्बर 2008 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

के एन त्रिवेदी (17080), ए के मित्तल (17079), के सी तनेजा (17072), ए महाजन (17074), के सिंह (17082)---29 दिसम्बर 2008 से प्रभावी

वि. कमां. से यु. कैप्ट. (टी एस) के मूल रैंक पर

प्रशासन शाखा

आर शर्मा (16847), के पी शर्मा (16851), एस शारदा (16848), ए के सक्सेना (16844), एस आर दशरथी (16846), पी डेनियल (16850)---04 जून 2008 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

जी के एच चौसें (16884) 11 जून 2008 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

ए जी सोमन (16856), ए कोहली (16863), एस चटर्जी (16070), ए मदान (16864), आर एस आर शर्मा (16861), एस के दूबे (16859), एस वर्मा (16862), बी के दास (16857), आर सी त्रिपाठी (16858) 04 जून 2008 से प्रभावी

लेखा शाखा

एन पी एस दल्मी (16872), ए के बाली (16878), ई पी पदमराज नाम्बियार (16886), एम एन पी बाबू (16869), आर वी भिर (16882), आई एस खर्ब (16877), डी वी वी दत्तू (16879), प्रदीप सिंह (16876), बी के चौधरी (16868)---04 जून 2008 से प्रभावी

वि. कमां. से यु. कैप्ट. (टी एस) के मूल रैंक में

प्रशासन शाखा

के सी कलिता (16622)---11 दिसम्बर 2007 से प्रभावी

वि. कमां. से यु. कैप्ट. (टी एस) के मूल रैंक पर

एफ (पी) शाखा

ए बाली (16996), वी एस राठौर (16993), ए के गुप्ता (17007), वाई जैन (17011), एम एम नासेर (17012)---29 दिसम्बर 2008 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

एस चक्रवर्ती (17003)---29 दिसम्बर 2008 से प्रभावी

वि. कमां. से यु. कैप्ट. (टी एस) के मूल रैंक पर

एफ (एन) शाखा

के रवि शेखर (17025)---29 दिसम्बर 2008 से प्रभावी

वि. कमां. से यु. कैप्ट. (टी एस) के मूल रैंक पर

ए ई (एम) शाखा

पी एस जी मजूमदार (17274), संजय कुमार (17275), सी एम राजू (17285)---20 अगस्त 2008 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

वी के गुप्ता (17293), ए जे देवकुमार (17290)---20 अगस्त 2008 से प्रभावी

वि. कमां. से यु. कैप्ट. (टी एस) के मूल रैंक पर

एफ (पी) शाखा

यू एन नायक (16831), एच के मिश्रा (16814), ए पी क्रिस्टोफर (16825), एम पी सुरंजे (16797), जी एस संधू (16821), एम जी मेहता (16810)---04 जून 2008 से प्रभावी

स्क्वॉड्रन लीडर से विंग कमांडर के मूल रैंक पर

एफ (पी) शाखा

के एस लांबा (23506), एस राज (23574), ए सिंघल (23534), वाई के दक्ष (23565), एस रे (23560), आर एस धालिवाल (23535), जी के पिल्लै (23571), पी दत्ता (23556), पी भारद्वाज (23521), के एस देसवाल (23517), एम कुमार (23514), ए एस परादेकर (23567), एफ पी पिंटे (23569), जी एस बुयलिया (23551), ए पुजारी (23536), एम खरे (23537), ए पी सिंह (23538), आर बेरी (23533), ए कुमार (23553), वी मल्होत्रा (23518), एस के कैवर (23520), बी एस बीसली (23544), वी के दूबे (23540), आर शिवराज (23532), ए कुमार (23529), ए गोपीनाथ (23558), एच कुलश्रेष्ठ (23545), ए मल्होत्रा (23549), आर वी प्रकाश (23523), ए गोस्वामी (23572), पी अवस्थी (23541), एस मलिक (23563), के मुखर्जी (23526), पी एच जगन्नाथ (23566), वी सिंह (23508), एस वी मुंजे (23511), वी एन अत्रेय (23509), वी जे सिंह (23519), आर राजेश (23570), ए पड्वा (23516), टी एच ए शैख (23527), ओ पी द्विवेदी (23562), ए नंदी (23552), डी ग्रेसियस (23575), ए बी लुले (23568)---17 जून 2008 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

ए अग्रवाल (23528)---17 जून 2008 से प्रभावी

एन विजय कुमार

विंग कमांडर

संयुक्त निदेशक

कार्मिक अफसर-3(डी)

स्थल सेना शाखा

सं. 515, दिनांक 20 जुलाई 2009---राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 जनवरी 2008 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना स्थाई कमीशन

(आईसी-27733) कर्नल (टीएस) अरविन्दर पाल सिंह मल्होत्रा, आर्टी

(आईसी-30008) कर्नल बालकृष्ण गोविंदराजन, एओसी

(आईसी-30339) कर्नल किरण कुमार डंगवाल, इंजीनियर्स

(आईसी-30395) कर्नल (टीएस) भूपिन्द्रा यादव, आर्टी

(आईसी-30420) कर्नल (टीएस) पबीत्रा मोहन गोस्वामी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-30440) कर्नल ईसार राजेश नाथ, आर्टी
 (आईसी-30586) कर्नल (टीएस) बीमन कुमार शर्मा, आर्टी
 (आईसी-30712) कर्नल शिशीर कुमार घोष, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-30757) कर्नल (टीएस) चन्दम रंजन कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-30782) कर्नल (टीएस) राकेश कुमार सहाय, एएससी
 (आईसी-30784) कर्नल (टीएस) दीपक सैन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31036) कर्नल (टीएस) डेनिस रेमंड लोबो, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31053) कर्नल सतीश प्रभाकर जोशी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31055) कर्नल (टीएस) स्वप्न कुमार गिरी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31081) कर्नल सुरेश पाल सिंह, एएससी
 (आईसी-31089) कर्नल मेहता विनय, एएडी
 (आईसी-31162) कर्नल (टीएस) दिलीप कुमार जोशी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31166) कर्नल (टीएस) निर्मल कुमार पाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31176) कर्नल (टीएस) रविन्द्र सिंह, एएडी
 (आईसी-31178) कर्नल शांति कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31187) कर्नल मेनन कारत गोपाल, आर्टी
 (आईसी-31354) कर्नल (टीएस) भोपाल सिंह, एसी
 (आईसी-31467) कर्नल (टीएस) जोस जोसफ, आर्टी
 (आईसी-31892) कर्नल (टीएस) नरेन्द्र पाल सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31893) कर्नल (टीएस) बोगर पेरिस यशवन्त, आर्टी
 (आईसी-31902) कर्नल (टीएस) गोपाल सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31987) कर्नल स्वामी दास, आईसी
 (आईसी-33937) ले. कर्नल सर्वजीत सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-34104) कर्नल (टीएस) प्रवेश रूद्रपाल, एसी
 (आईसी-34191) कर्नल (टीएस) करनैल सिंह कुकरेजा, सिग्नल्स
 (आईसी-34240) कर्नल (टीएस) पवन कुमार कपूर, एएमसी
 (आईसी-34267) कर्नल महेश प्रसाद माथुर, ईएमई
 (आईसी-34405) कर्नल मनिहास सुरेन्द्र सिंह, आर्टी
 (आईसी-34510) कर्नल (टीएस) अजीत कुमार राय, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-34588) कर्नल (टीएस) चौबे मदन, आर्टी
 (आईसी-34592) कर्नल मृत्युन्जय पाणीग्रही, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-34643) कर्नल (टीएस) मदन सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-35098) कर्नल (टीएस) मुत्तूकृष्णन् दुर्ई राज, इंजीनियर्स

(आईसी-35443) कर्नल (टीएस) प्रेम कुमार नायक, सिग्नल्स
 (आईसी-35831) कर्नल (टीएस) विनय कुमार मुद्गल, इंजीनियर्स
 (आईसी-35851) कर्नल (टीएस) देवेन्द्र कुमार शर्मा, ईएमई
 (आईसी-35872) कर्नल (टीएस) प्रदीप सिंह राऊतेला, ईएमई
 (आईसी-35952) कर्नल पिटचई रमन, आर्टी
 (आईसी-36221) कर्नल रिचर्ड लायनअल राउट, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-36330) कर्नल (टीएस) चितूर गोविन्द शंकर प्रकाश, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-36757) कर्नल (टीएस) जगदीश कुमार ओझा, एएससी
 (आईसी-36772) कर्नल केशव रिशी भटनागर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-36852) कर्नल (टीएस) बृजराज कुमार शर्मा, आर्टी
 (आईसी-36916) ले. कर्नल इरमबाला कृष्णा उमाशंकर, सिग्नल्स
 (आईसी-36943) कर्नल कृष्णा नन्द झा, आर्टी
 (आईसी-37045) कर्नल रमेश कुमार शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-37159) कर्नल (टीएस) सुन्दरम् रामा गोपाल, सिग्नल्स
 (आईसी-37534) ले. कर्नल राज करण सिंह, यादवा, एओसी
 (आईसी-38541) कर्नल (टीएस) ब्रोजेन्द्रा कुमार मंडल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-39136) कर्नल (टीएस) भगवान दास, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-39239) कर्नल (टीएस) कमलेश कुमार, आर्टी
 (आईसी-39547) कर्नल (टीएस) टेक चन्द धईया, आर्टी
 (आईसी-39674) ले. कर्नल ललित कुमार बौरा, एएससी
 (आईसी-39688) कर्नल (टीएस) कृष्ण कान्त त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-39759) ले. कर्नल देव कुमार गुरुंग, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-39982) ले. कर्नल मलकियत सिंह, आर्टी
 (आईसी-40182) कर्नल (टीएस) किशोर सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-40193) ले. कर्नल दिवाकर सावंत सुनील, आर्टी
 (आईसी-40207) ले. कर्नल सन्तानु कुमार एच, आर्टी
 (आरसी-1042) मेजर यसम सुबा रेड्डी, एएससी
 (आरसी-998) मेजर बलबीर सिंह, एएससी
 (एसएल-3335) ले. कर्नल दिलबाग सिंह, आरओ
 (एसएल-3423) ले. कर्नल महेश कुमार, ईएमई
 (एसएल-3508) ले. कर्नल श्याम लाल तलवार, क्यूएम
 (एसएल-3514) ले. कर्नल गीनागम परवातेसम, सिग्नल्स
 (एसएल-3743) ले. कर्नल असरी चिरायिल दोमन थोमसकुट्टी, सिग्नल्स

(एसएल-3919) ले. कर्नल सुखदेव सिंह चौहान, क्यूएम

(एसएल-3924) ले. कर्नल ए पी रेड्डी, सिग्नल्स

(एसएल-3987) ले. कर्नल जसबीर सिंह, आरओ

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 29 फरवरी 2008 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना स्थाई कमीशन

(आईसी-27946) कर्नल योगेन्द्र सिंह नेगी, मैक इन्फैन्ट्री

(आईसी-30203) कर्नल (टीएस) सुरेश कुमार, एएडी

(आईसी-30343) कर्नल (टीएस) सत्यवीर यादव, इन्फैन्ट्री

(आईसी-30484) कर्नल दिलीप कुमार बोरा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-30548) कर्नल (टीएस) मनजीत सिंह चौपड़ा, ईएमई

(आईसी-30557) कर्नल (टीएस) मुक्तिनाथ नाथ, आर्टी

(आईसी-30825) कर्नल सतीश चन्दर, इन्फैन्ट्री

(आईसी-30931) कर्नल चन्द्रसेन दिनकर राँव निकम, इंजीनियर्स

(आईसी-31217) कर्नल (टीएस) अरविन्द खरे, एओसी

(आईसी-31395) कर्नल त्रिलोचन सिंह मिनहास, सिग्नल्स

(आईसी-31515) ले. कर्नल सारंग वासुदेओ थाटे, सिग्नल्स

(आईसी-31520) कर्नल (टीएस) राजीव वासुदेवन, एसी

(आईसी-31637) कर्नल शमशेर सिंह, एसी

(आईसी-31692) कर्नल (टीएस) भास्करण मुरलीधरन नैयर, एएडी

(आईसी-31755) कर्नल दिलबाग सिंह मान, एएडी

(आईसी-31828) कर्नल (टीएस) कर्मदीप सिंह साहनी, इन्फैन्ट्री

(आईसी-31859) कर्नल (टीएस) चन्द्राशेखरन श्रीनिवास, इन्फैन्ट्री

(आईसी-33961) कर्नल हरमिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-34027) कर्नल (टीएस) अशोक कुमार साहा, एओसी

(आईसी-34276) ले. कर्नल राकेश कुमार पाठक, इंजीनियर्स

(आईसी-34572) कर्नल (टीएस) सरजीत सिंह राघव, इन्फैन्ट्री

(आईसी-34667) कर्नल (टीएस) राजेन्द्र कुमार राय, इंजीनियर्स

(आईसी-34688) कर्नल (टीएस) सत्योदया प्रकाश साहूकर, इंजीनियर्स

(आईसी-34710) कर्नल (टीएस) कमल राज मिनोचा, इंजीनियर्स

(आईसी-35455) ले. कर्नल अशोक कुमार सिंह, इंजीनियर्स

(आईसी-35618) कर्नल (टीएस) ग्यान चन्द, एओसी

(आईसी-35751) कर्नल (टीएस) बिजेन्द्र लाल दास, आर्टी

(आईसी-35875) कर्नल (टीएस) जसपाल सिंह, आर्टी

(आईसी-36134) कर्नल (टीएस) बिजय कुमार चतुर्वेदी, इन्फैन्ट्री

(आईसी-36196) कर्नल रिपू दमन सिंह सहारन, एसी

(आईसी-36674) कर्नल कुलभूषण मदार, इन्फैन्ट्री

(आईसी-36834) कर्नल वेणूगोपाल शिवानन्दम्, इन्फैन्ट्री

(आईसी-36859) ले. कर्नल सौरभ कुमार, आर्टी

(आईसी-36862) कर्नल (टीएस) सुब्रामनयम विजयाराघवन, इन्फैन्ट्री

(आईसी-36922) कर्नल (टीएस) श्रीहरी रामामूर्ति, इंजीनियर्स

(आईसी-37034) कर्नल (टीएस) शिवसागर पटेल, मैक इन्फैन्ट्री

(आईसी-37063) कर्नल (टीएस) सज्जन लाल, इन्फैन्ट्री

(आईसी-37107) कर्नल (टीएस) यशपाल सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री

(आईसी-37301) कर्नल सतीश कुमार दत्ता, इंजीनियर्स

(आईसी-37317) कर्नल सैमुअल आर्थर राँय, मैक इन्फैन्ट्री

(आईसी-38235) कर्नल (टीएस) रामाकान्त झा, ईएमई

(आईसी-38313) कर्नल रघबीर सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-39164) कर्नल अशोक कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-39904) कर्नल (टीएस) देव राज, आर्टी

(आईसी-40141) कर्नल (टीएस) कृष्ण गोपाल लिम्बू, इन्फैन्ट्री

(आईसी-40199) कर्नल (टीएस) मल्लूक सिंह, आर्टी

(आईसी-40652) ले. कर्नल कुलवन्त सिंह, एओसी

(आरसी-00974) मेजर दुरईस्वामी नेकर सुब्रामणी, इंजीनियर्स

(एसएल-03106) ले. कर्नल बच्चन सिंह, क्यूएम

(एसएल-03524) ले. कर्नल जगदीश सिंह, आरओ

(एसएल-03753) ले. कर्नल चमर्ती वेन्कट लक्ष्मी नरसिम्हा राव, आरओ

(एसएल-03806) ले. कर्नल गुलशन कुमार शर्मा, ईएमई

(एसएल-03888) ले. कर्नल मंगल सिंह, क्यूएम

(एसएल-03934) ले. कर्नल गोपाल तमिलमनी मुदालिअर, क्यूएम

(वी-343) कर्नल श्याम सुन्दर राजपाल, आरवीसी

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 मार्च 2008 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करती हैं :--

नियमित सेना स्थाई कमीशन

(आईसी-27952) कर्नल बिमल किशोर चरण, ईएमई

(आईसी-27998) ले. कर्नल कुलभूषण शर्मा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-30378) कर्नल रनदीप सिंह धड़वाल, इन्फैन्ट्री

(आईसी-30398) कर्नल जमशेद हुसैन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-30401) कर्नल मोहन चन्द्रा बरुआ, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-30593) कर्नल (टीएस) प्रदीप कुमार तिवारी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-30690) कर्नल यशवन्त सिंह चाहल, एसी
 (आईसी-30794-) कर्नल गिरीश मेहरा, आर्टी
 (आईसी-30876) कर्नल कन्वलजीत सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-30912) कर्नल (टीएस) मनदेव सिंह, आर्टी
 (आईसी-31032) कर्नल (टीएस) अब्राहम जैकब, आर्टी
 (आईसी-31098) कर्नल (टीएस) फूल कुमार, एएससी
 (आईसी-31188) कर्नल (टीएस) भुवनेश्वर सिंह रावत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31194) कर्नल (टीएस) बाल कृष्ण, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31300) कर्नल लक्ष्मी पति दासिका, इंजीनियर्स
 (आईसी-31362) कर्नल गोविन्दा चन्द्रा रथ, एसी
 (आईसी-31366) कर्नल गुरबिन्दर सिंह मान, आर्टी
 (आईसी-31425) कर्नल (टीएस) रणजीत कुमार बरुआ, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31465) कर्नल तरुण पोद्दार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31544) कर्नल (टीएस) गुरदास सिंह वारऐच, एओसी
 (आईसी-31734) कर्नल (टीएस) विनोय कुमार मेहता, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31868) कर्नल रविन्द्र कुमार गोसेन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31879) कर्नल वासुदेवन दामोदरन पोद्दी, आर्टी
 (आईसी-34193) कर्नल (टीएस) हेमन्त कुमार भट्टाचार्य, आर्टी
 (आईसी-34280) कर्नल (टीएस) नरेन्द्र पाल सिंह, ईएमई
 (आईसी-34672) कर्नल (टीएस) वीराराघवन राजामनिकम्
 विलावनकोठा, सिग्नल्स
 (आईसी-35070) कर्नल (टीएस) विश्वाजीत डे, ईएमई
 (आईसी-35404) कर्नल अनिल कुमार सेठ, सिग्नल्स
 (आईसी-36455) ले. कर्नल मनोहर अनया नायडू, आर्टी
 (आईसी-36550) कर्नल कृष्ण पाल सिंह खट्टी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-36649) कर्नल (टीएस) राजेन्द्र सिंह, ईएमई
 (आईसी-36924) कर्नल (टीएस) सुरेश कुमार इन्नता शिनोए, एसी
 (आईसी-36966) कर्नल सुनील सिरकर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-37142) कर्नल (टीएस) श्रीप्रकाश श्रीधर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-37289) कर्नल (टीएस) विक्रम राजागोपालन, आर्टी
 (आईसी-37456) कर्नल शंकर राव चप्पाती, ईएमई
 (आईसी-38156) कर्नल (टीएस) मिलन थापा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-38345) कर्नल (टीएस) बुद्ध राम, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-38629) कर्नल (टीएस) राजीव भारद्वाज, सिग्नल्स
 (आईसी-38842) कर्नल ब्रजेन्द्र कुमार दाश, सिग्नल्स
 (आईसी-39022) कर्नल (टीएस) हर गोविन्द सिंह, आर्टी
 (आईसी-39584) कर्नल (टीएस) बलेन्द्र प्रताप सिंह कुशवाह, एसी
 (आईसी-39813) कर्नल (टीएस) प्रदीप कुमार पटनायक, इंजीनियर्स
 (आईसी-40086) कर्नल (टीएस) नाहर सिंह, आर्टी
 (आईसी-40255) कर्नल (टीएस) राज किशोर सिंह, एएससी
 (आईसी-40454) ले. कर्नल किरण शंकर चक्राबती, सिग्नल्स
 (आईसी-40587) ले. कर्नल जय सिंह, एएससी
 (आईसी-1005) मेजर भवानी सिंह राठौर, इन्फैन्ट्री
 (एसएल-2918) ले. कर्नल एम एन सुरेन्द्रन, आरओ
 (एसएल-3012) ले. कर्नल मनोहर लाल शर्मा, क्यूएम
 (एसएल-3137) ले. कर्नल ग्यान चन्द वर्मा, आरओ
 (एसएल-3401) ले. कर्नल दलीप चन्द, एओसी
 (एसएल-3636) ले. कर्नल निर्मल कृष्णा समाजपति, ईएमई
 (एसएल-3802) ले. कर्नल ध्यान चन्द वर्मा, ईएमई
 (एसएल-3913) ले. कर्नल सी जे जोसफ, ईएमई
 (एसएल-3210) ले. कर्नल मदन गोपाल गर्ग, इंजीनियर्स
 (एसएल-3249) ले. कर्नल बलजिन्दर सिंह, सिग्नल्स
 (एसएल-3253) ले. कर्नल राजेन्द्र सिंह दसीला, सिग्नल्स
 (एसएल-3484) ले. कर्नल योगेन्द्र कुमार सिंह, सिग्नल्स
 (एसएल-3516) ले. कर्नल शौकत अली, आईसी
 (एसएल-3599) ले. कर्नल गजन सिंह बाजवा, सिग्नल्स
 (एसएल-3862) ले. कर्नल लक्ष्मण अड्यंगर सम्पत, सिग्नल्स
 (वी-333) कर्नल मीहिर भट्टाचार्य, आरवीसी

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 30 अप्रैल 2008 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना स्थाई कमीशन

(आईसी-30146) कर्नल राकेश्वर सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-30329) कर्नल (टीएस) ज्योति वर्धान, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-30391) कर्नल उपेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-30425) कर्नल (टीएस) अजीत सिंह, सिग्नल्स

(आईसी-30433) कर्नल (टीएस) तलिकीचरला कन्डालम रामानूजम्, एएडी

(आईसी-30450) कर्नल (टीएस) जसबीर सिंह चौहान, आर्टी

(आईसी-30472) कर्नल (टीएस) सुरेन्द्रा पति त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री

(आईसी-30517) कर्नल (टीएस) जंगवीर सिंह राठी, इन्फैन्ट्री

(आईसी-30717) कर्नल (टीएस) बालाचन्द्रा नचप्पा सोमना, इन्फैन्ट्री

(आईसी-30796) कर्नल त्यागराजन प्रभाकर, एससी

(आईसी-30831) कर्नल (टीएस) सुनील कुमार सिन्हा, ईएमई

(आईसी-30925) कर्नल विक्रम बारू, इंजीनियर्स

(आईसी-31029) कर्नल जगदेव सिंह यादव, इन्फैन्ट्री

(आईसी-31044) कर्नल (टीएस) सिद्धार्थ सेठ, आर्टी

(आईसी-31106) कर्नल (टीएस) गौतम मजूमदार, इंजीनियर्स

(आईसी-31133) कर्नल (टीएस) रविन्द्रानाथ अड्यप्पा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-31171) कर्नल (टीएस) सुबोध कुमार भट्ट, इंजीनियर्स

(आईसी-31375) कर्नल (टीएस) कैलाश चन्द, मैक इन्फैन्ट्री

(आईसी-31457) कर्नल बाल कृष्ण, इन्फैन्ट्री

(आईसी-31848) कर्नल शैलेन्द्र कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-31873) कर्नल (टीएस) मानिकलाल विश्वास, इन्फैन्ट्री

(आईसी-33963) कर्नल (टीएस) रिबीलो विक्टर रोबर्ट, इन्फैन्ट्री

(आईसी-34105) कर्नल हाशियार सिंह कुन्डू, इन्फैन्ट्री

(आईसी-34183) कर्नल कुलदीप सिंह चीमा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-34262) कर्नल मोहिन्दर सिंह, आईसी

(आईसी-34327) कर्नल दीपक भास्करराव गाडे, इंजीनियर्स

(आईसी-34581) कर्नल (टीएस) सिद्धार्थ, आर्टी

(आईसी-34699) कर्नल विजय कुमार भाटिया, इंजीनियर्स

(आईसी-35023) कर्नल अशोक कुमार शर्मा, इंजीनियर्स

(आईसी-35430) कर्नल अशोक कुमार सिंह, सिग्नल्स

(आईसी-35822) कर्नल (टीएस) नगेन्द्र सिंह, ईएमई

(आईसी-35886) कर्नल (टीएस) नारायण परवानी, इंजीनियर्स

(आईसी-36197) कर्नल (टीएस) उपेन्द्र रैना, इन्फैन्ट्री

(आईसी-36277) कर्नल (टीएस) राजा शेखर, इन्फैन्ट्री

(आईसी-36368) ले. कर्नल उदयवीर त्यागी, इन्फैन्ट्री

(आईसी-36400) कर्नल (टीएस) विवेक सूद, आर्टी

(आईसी-36937) कर्नल (टीएस) तरनजीत सिंह, ईएमई

(आईसी-37104) कर्नल (टीएस) सिल्टर एरीन्यू रौडरिक्स, एससी

(आईसी-37134) कर्नल (टीएस) वनरपेट गनापतिअप्पन् सुन्दरावेलु, इन्फैन्ट्री

(आईसी-37280) ले. कर्नल कमल नारायण पुरी, आर्टी

(आईसी-37302) कर्नल अचप्पा कुप्पन्दा ननजप्पा, इंजीनियर्स

(आईसी-37448) कर्नल विदोष कुमार सबरवाल, ईएमई

(आईसी-38584) कर्नल (टीएस) सुशील चन्द्रा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-39055) कर्नल (टीएस) रूपिन्दर सिंह, इंजीनियर्स

(आईसी-39503) कर्नल (टीएस) दीपक कुमार पुन, एससी

(आईसी-39951) कर्नल (टीएस) तेज सिंह, एओसी

(आईसी-40049) कर्नल अरुण प्रकाश पाण्डे, आर्टी

(आईसी-40175) कर्नल (टीएस) नरेश सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-1009) मेजर सुखवीर सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-989) मेजर गुरनाम सिंह, आर्टी

(एसएल-03321) ले. कर्नल साधू सिंह, क्यूएम

(एसएल-03347) ले. कर्नल दिलबाग सिंह पन्नु, आरओ

(एसएल-03751) ले. कर्नल जगवन्त सिंह, आरओ

(एसएल-03863) ले. कर्नल विजय कुमार सी, सिग्नल्स

(एसएल-03961) ले. कर्नल कृपाल सिंह, एपीटीसी

(एसएल-03986) ले. कर्नल राम निवास यादव, ईएमई

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 मई 2008 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना रथाई कमीशन

(आईसी-30405) कर्नल (टीएस) अमर जीत सिंह वधवान, इन्फैन्ट्री

(आईसी-30469) कर्नल अरुण प्रकाश, इंजीनियर्स

(आईसी-30862) ले. कर्नल शरनजीत सिंह, इंजीनियर्स

(आईसी-31661) कर्नल हुबर्ट प्रफूल्ला में सोनस, आर्टी

(आईसी-31773) कर्नल (टीएस) अनिल कुमार मेन्दीरत्ता, एएडी

(आईसी-33927) कर्नल (टीएस) अशोक कुमार सिंह, इंजीनियर्स

(आईसी-34118) कर्नल (टीएस) यश पॉल लुम्बा, एससी

(आईसी-34213) कर्नल (टीएस) अजीत विनोबा सेम्यूल एन्डयूस, आर्टी

(आईसी-34567) कर्नल राजेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-34606) कर्नल बिजू पालामोतीलवाडकाथिल कोशी, एओसी

(आईसी-34640) कर्नल (टीएस) रे नेपीअर, एससी

(आईसी-35399) कर्नल (टीएस) डोड्डाबालापुर कृष्णअप्पा प्रसाद, इंजीनियर्स

(आईसी-35450) कर्नल (टीएस) सुधापल्ली लावा कुमार, ईएमई

(आईसी-36084) कर्नल (टीएस) कृष्णा वल्लभ ओझा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-36292) कर्नल (टीएस) अलोक चक्रावर्ती, इन्फैन्ट्री

(आईसी-36356) कर्नल उपेन्दा सचदेवा, एएडी

(आईसी-36359) कर्नल दलजीत सिंह, आर्टी

(आईसी-36740) कर्नल (टीएस) राजीव कनवर, इन्फैन्ट्री

(आईसी-36864) कर्नल ब्रज बिहारी पट्टा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-36930) कर्नल (टीएस) ईरोड जगादीसन जयाकानून, सिग्नल्स

(आईसी-37112) कर्नल (टीएस) राय सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-37157) कर्नल गणेश कुमार उदयभानू, ईएमई

(आईसी-37445) कर्नल (टीएस) भूपल सिंह बोरा, इंजीनियर्स

(आईसी-37732) कर्नल राकेश कुमार, ईएमई

(आईसी-38100) कर्नल (टीएस) सुरेन्द्र सिंह लथेर, मैक इन्फैन्ट्री

(आईसी-38189) कर्नल (टीएस) रतिन्द्र नाथ अदित्य, सिग्नल्स

(आईसी-38260) कर्नल (टीएस) दिनेश कुमार सिंह, ईएमई

(आईसी-38386) कर्नल माम राज सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-38502) कर्नल (टीएस) चरण कमल सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-38611) कर्नल (टीएस) राजीव राघवन, ईएमई

(आईसी-39414) मेजर प्रकाश बिन्दूमाधव पाण्डुरंगी, इंजीनियर्स

(आईसी-39496) कर्नल सत्या पाल, इन्फैन्ट्री

(आईसी-39806) कर्नल (टीएस) शिव शर्मा, ईएमई

(आईसी-39900) ले. कर्नल तीरथ सिंह कंवर, इन्फैन्ट्री

(आईसी-40100) कर्नल (टीएस) वीरुप्रकाशाप्पा उदमीशी, इन्फैन्ट्री

(आईसी-40174) कर्नल (टीएस) हरेन्द्र सिंह, एओसी

(आरसी-1012) मेजर भोसले के पी, सिग्नल्स

(आरसी-994) मेजर आर कनैया रेड्डी, इन्फैन्ट्री

(आरसी-996) मेजर के मुरुगासामी, एएससी

(एसएल-3055) ले. कर्नल बाबू राजेन्द्र प्रसाद तुरलापति, इंजीनियर्स

(एसएल-3150) ले. कर्नल हरजीत सिंह धनजल, आरओ

(एसएल-3247) ले. कर्नल हरी राम सरोहीवाल, सिग्नल्स

(एसएल-3265) ले. कर्नल योगेन्द्र पाल सिंह, एओसी

(एसएल-3280) ले. कर्नल पुरुषोत्तम ए एन, ईएमई

(एसएल-3340) ले. कर्नल संकरा पिल्लई, आरओ

(एसएल-3568) ले. कर्नल प्रभाकर कुरूप जी, ईएमई

(एसएल-3655) ले. कर्नल काशी विश्वेश्वरा राव रंगीनीडी, आरओ

(एसएल-3676) ले. कर्नल एन राजागोपाल, ईएमई

(एसएल-3737) ले. कर्नल प्रेम सिंह, सिग्नल्स

(एसएल-3760) ले. कर्नल पुन्डलीक्का मेंडर, ईएमई

(एसएल-3843) ले. कर्नल प्रियातोष विश्वास, सिग्नल्स

(एसएल-3956) ले. कर्नल खाडजी वी पी, सिग्नल्स

(एसएल-3957) ले. कर्नल विजय सिंह पाबला, सिग्नल्स

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 30 जून 2008 से उनकी साधारण निवृत्ति प्रदान करते हैं:--

नियमित सेना स्थाई कमीशन

(आईसी-27750) कर्नल देवेन्द्र प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-30376) कर्नल जितेन्द्र कुमार आलूवालिया, इंजीनियर्स

(आईसी-30685) कर्नल धन बहादुर थापा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-30764) कर्नल सुशील कुमार चौहान, इन्फैन्ट्री

(आईसी-30775) कर्नल (टीएस) मोहन इन्द्र अहलावत, इन्फैन्ट्री

(आईसी-30778) कर्नल रविकिरण गंगाराम कदम, आर्टी

(आईसी-30877) कर्नल (टीएस) कृष्णा कमल बोरा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-30999) कर्नल (टीएस) सतिन्द्रजीत सिंह, आर्टी

(आईसी-31102) कर्नल (टीएस) सुरिन्द्र पाल सिंह, इंजीनियर्स

(आईसी-31136) कर्नल (टीएस) पुथन वीटिल सुनील कुमार, इन्फैन्ट्री

(आईसी-31205) कर्नल अरविन्द कुमार, इंजीनियर्स

(आईसी-31367) कर्नल (टीएस) रमेश प्रसाद सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-31402) कर्नल (टीएस) सिडनी रूडलफ देसा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-31444) कर्नल (टीएस) रविन्द्र चन्द कटोच, इन्फैन्ट्री

(आईसी-31466) कर्नल नारायण मूर्ति शंकर, इन्फैन्ट्री

(आईसी-31486) कर्नल गंगाईकोण्डन वेन्कटारमन कुमार, आर्टी

(आईसी-31710) कर्नल महेश तंवर, एसी

(आईसी-31857) कर्नल (टीएस) मरिअप्पन बालासुब्रामण्य, इन्फैन्ट्री

(आईसी-31878) कर्नल (टीएस) सिद्धार्थ लक्ष्मण शिन्दे, आर्टी

(आईसी-34501) कर्नल मन्नाट्टिल रामाचन्द्रन, इन्फैन्ट्री

(आईसी-34625) कर्नल (टीएस) जगदीश सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-34631) कर्नल (टीएस) मैथ्यू वरगीस एडीपूझा, इन्ट कौर

(आईसी-34714) कर्नल (टीएस) राजा रमन शंकर नारायणा, ईएमई

(आईसी-34894) कर्नल रविन्द्र सिंह नेगी, इन्फैन्ट्री

(आईसी-36016) कर्नल (टीएस) शरद चन्द्रा अवस्थी, एसी

(आईसी-36030) कर्नल राजीव काकरा, एएडी

(आईसी-36702) कर्नल (टीएस) कुलकर्णी सतीश वमनराव, सिग्नल्स
 (आईसी-36808) कर्नल (टीएस) अनिल जोसफ, एसी
 (आईसी-36819) कर्नल विजय कुमार महाजन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-36899) कर्नल मनोहर सिंह, एसी
 (आईसी-36984) कर्नल (टीएस) गुडला शिवशंकर रेड्डी, सिग्नल्स
 (आईसी-37047) कर्नल राकेश बक्शी, एसी
 (आईसी-37205) कर्नल (टीएस) मो. असलम चौधरी, आर्टी
 (आईसी-37858) कर्नल (टीएस) अखिल कुमार, ईएमई
 (आईसी-38089) कर्नल मो. इसारूल हक, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-38225) कर्नल (टीएस) सुनील कुमार श्रीवास्तव, सिग्नल्स
 (आईसी-38660) ले. कर्नल गोपाल सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-39069) कर्नल लक्ष्मी नारायण शर्मा, आर्टी
 (आईसी-39166) ले. कर्नल बूटा सिंह गिल, आर्टी
 (आईसी-39248) कर्नल (टीएस) जीत पाल सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-39623) कर्नल (टीएस) पंजाब सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-39984) कर्नल (टीएस) जगरूप सिंह, आर्टी
 (आईसी-40053) कर्नल अमर नाथ यादव, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-40118) कर्नल (टीएस) शिवा सेवक पटेल, सिग्नल्स
 (आईसी-40205) कर्नल (टीएस) कैलाश चन्द्र तिवारी, एओसी
 (आईसी-40229) कर्नल (टीएस) एफ मोहम्मद हबीबुल्ला, आर्टी
 (आईसी-976) मेजर गोविन्द सिंह, इन्फैन्ट्री
 (एसएल-2525) कर्नल (टीएस) विनय दलवी, एपीटीसी
 (एसएल-2648) कर्नल (टीएस) वाईवीएस जामवल, एपीटीसी
 (एसएल-3135) ले. कर्नल राम चन्द्र पाठक, आरओ
 (एसएल-3279) ले. कर्नल सुखाकरण वी, ईएमई
 (एसएल-3539) ले. कर्नल दीदार सिंह, इंजीनियर्स
 (एसएल-3616) ले. कर्नल जी देवाराजूलू, सिग्नल्स
 (एसएल-3748) ले. कर्नल मोहर सिंह, सिग्नल्स
 (एसएल-3832) ले. कर्नल जी कानन, इंजीनियर्स
 (एसएल-3881) ले. कर्नल गुरचरण सिंह भुल्लर, क्यूएम

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 जुलाई 2008 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं:--

नियमित सेना स्थाई कमीशन

(आईसी-30734) कर्नल अंशू त्रिवेदी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-30918) ले. कर्नल बिधन चन्द्रा चौधरी, सिग्नल्स
 (आईसी-30923) कर्नल (टीएस) हरकेश कुमार लाम्बा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-31051) कर्नल अशोक सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-31057) कर्नल अशीत भोला, एएडी
 (आईसी-31093) कर्नल सुरेन्द्र दत्त, आर्टी
 (आईसी-31112) कर्नल राजबीर सिंह रोहेला, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31181) कर्नल अनूप कुमार गुप्ता, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31210) कर्नल (टीएस) हरप्रीत सिंह सारंग, ईएमई
 (आईसी-31340) कर्नल रवि कुमार सिंह पुन्डीर, इंजीनियर्स
 (आईसी-31382) कर्नल (टीएस) नील कमल सचर, एसी
 (आईसी-31384) कर्नल सुधीर कुमार सखूजा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31394) कर्नल भारत भूषण शर्मा, इंजीनियर्स
 (आईसी-31460) कर्नल (टीएस) सुखबीर सुहाग, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31516) कर्नल (टीएस) रविन्द्र कुमार, इंजीनियर्स
 (आईसी-31822) कर्नल (टीएस) पंकज मेहरा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31905) कर्नल (टीएस) उदय सादशिव अगासे, एससी
 (आईसी-34573) कर्नल (टीएस) राजेश कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-34936) कर्नल (टीएस) करण सिंह राठौर, एसी
 (आईसी-35050) कर्नल (टीएस) जगजीत सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-35388) कर्नल (टीएस) सुनील कुमार आर्य, ईएमई
 (आईसी-35859) कर्नल (टीएस) सुरेश कुमार शर्मा, इंजीनियर्स
 (आईसी-36215) कर्नल अन्नीकथ कुमारन जनार्दन नैयर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-36240) कर्नल सुखपाल सिंह सोकर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-36497) कर्नल (टीएस) सतीश कुमार दूबे, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-36555) कर्नल दलजीत कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-36569) कर्नल (टीएस) शत्रुघन सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-36698) कर्नल अनिल कुमार शर्मा, सिग्नल्स
 (आईसी-36776) कर्नल सुरेन्द्र सिंह माथुर, एसी
 (आईसी-36836) कर्नल (टीएस) रमेश चन्द्र सोढी, आर्टी
 (आईसी-36929) कर्नल जगदीश चन्द्र पाण्डे, जेएजी
 (आईसी-36939) कर्नल राजन बक्शी, एओसी
 (आईसी-36956) कर्नल (टीएस) मोहन चन्द्रा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-37015) कर्नल (टीएस) अनिल चौधरी, एसी
 (आईसी-37100) कर्नल सुरेन्द्रपाल पाहवा सिंह, आर्टी
 (आईसी-37148) कर्नल (टीएस) मनाप्रगदा सूर्या प्रकाश, एओसी
 (आईसी-37249) कर्नल (टीएस) कलेनगदा मुथन्ना गनापति, इन्फैन्ट्री

(आईसी-37400) कर्नल (टीएस) किरण पाल चौहान, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-37427) कर्नल (टीएस) सुभाष खिलनानी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-38244) कर्नल (टीएस) अशोक कुमार बट्ट, इंजीनियर्स
 (आईसी-39786) कर्नल (टीएस) प्रमोद कुमार शर्मा, एएडी
 (आईसी-40191) ले. कर्नल टेक सिंह, एओसी
 (आईसी-40372) कर्नल (टीएस) रणधीर सिंह, एओसी
 (आईसी-40447) ले. कर्नल कमलेन्दर सिंह राठौर, एएससी
 (आईसी-40455) कर्नल (टीएस) सतपाल शर्मा, एएससी
 (एसएल-3045) कर्नल नन्द सिंह चौहान, आरओ
 (एसएल-3263) ले. कर्नल शिव नाथ सिंह तोमर, एओसी
 (एसएल-3392) ले. कर्नल दिग्विजय सिंह राठौर, सिग्नल्स
 (एसएल-3549) ले. कर्नल सुखलाल सिंह डबास, एओसी
 (एसएल-3563) ले. कर्नल सुदर्शन कुमार, ईएमई
 (एसएल-3618) ले. कर्नल गजेन्द्र बहादुर थापा, क्यूएम
 (एसएल-3632) ले. कर्नल कश्मीरी लाल बेन्स, ईएमई
 (एसएल-3651) ले. कर्नल लोकनाथ, सिग्नल्स
 (एसएल-3729) ले. कर्नल चारुकुट्टी बी, ईएमई

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 अगस्त, 2008 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं:—

नियमित सेना स्थाई कमीशन

(आईसी-27982) कर्नल (टीएस) अमृत गोपाल सिंह कोईजम, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-30359) कर्नल सुनील कुमार माथुर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-30413) कर्नल अजोय रनादालाल पोद्दार, आर्टी
 (आईसी-30489) कर्नल सुखबीर सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-30760) कर्नल (टीएस) विरेन्द्र कुमार जेसानी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-30773) कर्नल प्रमोद कुमार चौधरी, एएससी
 (आईसी-30798) कर्नल तेजिन्दर पाल सिंह ग्रेवाल, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-30838) कर्नल (टीएस) रोहतास सिंह मलिक, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31683) कर्नल हरिओम खन्डेलवाल, आर्टी
 (आईसी-31768) कर्नल (टीएस) अनिल कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31789) कर्नल (टीएस) लुव गडोंक, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31900) कर्नल (टीएस) विपन जगदीश कोहली, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-34189) कर्नल राज कुमार चौद, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-34195) कर्नल (टीएस) प्रदीप कुमार डर, एसी

(आईसी-34222) कर्नल (टीएस) रवि करण तलवार, एएससी
 (आईसी-34227) कर्नल (टीएस) विद्या भूषण प्रसाद, आर्टी
 (आईसी-34302) कर्नल (टीएस) सुनील कुमार, इंजीनियर्स
 (आईसी-34303) कर्नल (टीएस) श्याम मुकंद पारूलकर, सिग्नल्स
 (आईसी-34334) कर्नल (टीएस) इन्दर पाल सिंह गुजराल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-34503) कर्नल जगमोहन सिंह ग्रेवाल, एओसी
 (आईसी-34609) कर्नल (टीएस) किज़ाकी वीदू मोहन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-34617) कर्नल (टीएस) गणेश सिंह बोरा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-34661) कर्नल (टीएस) कुलकर्णी रमेश ऐकनाथ, इंजीनियर्स
 (आईसी-34709) कर्नल सेतालूरी श्रीनिवास, सिग्नल्स
 (आईसी-34827) कर्नल अनूप कुमार सक्सेना, एसी
 (आईसी-35793) कर्नल अरविन्द कुमार महाजन, ईएमई
 (आईसी-35864) कर्नल (टीएस) तिलक राज शर्मा, सिग्नल्स
 (आईसी-36278) कर्नल (टीएस) डेनिस प्रमोद दत्ता, आर्टी
 (आईसी-36833) कर्नल (टीएस) लखवीर सिंह, आर्टी
 (आईसी-37043) कर्नल (टीएस) जसबीर सिंह, आर्टी
 (आईसी-37194) कर्नल गुरमीत सिंह, ईएमई
 (आईसी-37196) कर्नल (टीएस) अनिल दत्तात्रेय पलानदे, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-37345) कर्नल जतिन्द्र पाल सिंह, एओसी
 (आईसी-37450) कर्नल (टीएस) अनिल कुमार, ईएमई
 (आईसी-37529) कर्नल (टीएस) रमेश कुमार अवस्थी, एओसी
 (आईसी-38636) कर्नल (टीएस) मधुरेन्द्रा मोहन कौल, इंजीनियर्स
 (आईसी-38856) कर्नल (टीएस) दिनेश चन्द्रा उपाध्याय, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-39991) कर्नल (टीएस) राजेन्द्र कुमार यादव, आर्टी
 (आईसी-40089) कर्नल (टीएस) ठाकुर करण सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-40226) कर्नल (टीएस) तन्द्रा वेन्कट सूर्यनारायणा मूर्ति, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-40357) कर्नल विरेन्द्र सिंह माल, एओसी
 (आईसी-40550) कर्नल तेजेन्द्र पाल सिंह, एएससी
 (आरसी-988) मेजर प्रकाश चन्द वर्मा, इन्फैन्ट्री
 (एसएल-2892) कर्नल (टीएस) लक्ष्मण सिंह बजेथा, इंजीनियर्स
 (एसएल-3318) ले. कर्नल सुरेश प्रसाद अवस्थी, क्यूएम
 (एसएल-3331) ले. कर्नल राजेन्द्र कुमार कटोच, आरओ
 (एसएल-3513) ले. कर्नल हरी राम, आरओ
 (एसएल-3666) ले. कर्नल जगदीश चन्दर शर्मा, आरओ

(एसएल-3712) ले. कर्नल भुपिन्द सिंह चन्देल, ईएमई

(एसएल-3911) ले. कर्नल हरी चन्द, इंजीनियर्स

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 30 सितम्बर, 2008 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना स्थाई कमीशन

(आईसी-30371) कर्नल (टीएस) महेन्द्र प्रताप शर्मा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-30693) कर्नल अखिलेश कुमार दास, ईएमई

(आईसी-30765) कर्नल (टीएस) चन्द्र कान्त काडियन, इन्फैन्ट्री

(आईसी-31039) कर्नल तेज सिंह दलाल, एओसी

(आईसी-31121) कर्नल रामरेशन सुभाष, एएससी

(आईसी-31371) कर्नल (टीएस) उदय सिंह राठौर, एओसी

(आईसी-31474) कर्नल देवेन्द्र यादव, एओसी

(आईसी-31687) कर्नल इन्द्रेण कुमार जैन, एसी

(आईसी-31690) कर्नल (टीएस) विनोद कुमार अरोरा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-31752) कर्नल (टीएस) कार्ल लिओपोल्ड ड गामा रोज, इन्ट कोर

(आईसी-31874) कर्नल (टीएस) स्वर्ण एस एस, आर्टी

(आईसी-31875) कर्नल (टीएस) साही एस पी, आर्टी

(आईसी-34135) कर्नल पार्था सारथी गान्गुली, इन्फैन्ट्री

(आईसी-34163) कर्नल (टीएस) पाधे आर पी, आर्टी

(आईसी-34201) कर्नल (टीएस) रवि दीवान, एसी

(आईसी-34217) कर्नल आनंद स्वरूप, एसी

(आईसी-34228) कर्नल वयालिपूरायाथू जोन चैरियन, एओसी

(आईसी-34236) कर्नल (टीएस) प्रनब वेद्या, आर्टी

(आईसी-34451) कर्नल (टीएस) रच्छपाल चौद, एसी

(आईसी-34591) कर्नल (टीएस) दलविन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-34602) कर्नल (टीएस) सुधीर रजनीकान्त उपाध्याय, इन्फैन्ट्री

(आईसी-34825) कर्नल राजेन्द्र सिंह जसरोटिआ, इन्फैन्ट्री

(आईसी-34985) कर्नल गोवर्धन आर बी, आर्टी

(आईसी-35436) कर्नल (टीएस) रतनेश्वर प्रसाद सिंह, इंजीनियर्स

(आईसी-35612) कर्नल (टीएस) जोगिंदर सिंह बदोतरा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-35884) कर्नल (टीएस) असीम राजन दास, ईएमई

(आईसी-35885) कर्नल (टीएस) अनिल कुलश्रेष्ठा, ईएमई

(आईसी-36214) कर्नल कन्वर सिंह अईथानी, इन्फैन्ट्री

(आईसी-36227) ले. कर्नल दीपक वसन्तराव मांडलिक, इन्फैन्ट्री

(आईसी-36472) कर्नल (टीएस) मदन गोपाल सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-36721) कर्नल अनिल तलवार, एसी

(आईसी-36923) ले. कर्नल दिनेश वैद्य, एसी

(आईसी-37023) कर्नल दत्ता पी, एएडी

(आईसी-37030) ले. कर्नल परमजीत सिंह कोहली, एएससी

(आईसी-37372) कर्नल (टीएस) बालचन्द्रा गनपति करिअपा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-37380) कर्नल देवगन टी आर, आर्टी

(आईसी-37408) कर्नल (टीएस) सुरेन्द्र सिंह दलाल, एओसी

(आईसी-37428) ले. कर्नल होरमज्द पेशोतन वासूना, इन्फैन्ट्री

(आईसी-37433) कर्नल (टीएस) प्रवीण कुमार मेहता, इंट कोर

(आईसी-37435) ले. कर्नल बलजीत सिंह आलूवालिया, एओसी

(आईसी-37440) कर्नल (टीएस) कमलजीत सिंह कम्बोज, ईएमई

(आईसी-37443) कर्नल (टीएस) राजीव मनचन्दा, एओसी

(आईसी-39474) कर्नल (टीएस) राणा शशी, इन्फैन्ट्री

(आईसी-40075) कर्नल (टीएस) राज कुमार सिंह, एएससी

(आईसी-40510) कर्नल (टीएस) विजय कुमार सावंत, एएससी

(आईसी-40565) कर्नल (टीएस) नरेन्द्र शर्मा, एओसी

(आईसी-40646) ले. कर्नल सुरेश कुमार, एओसी

(आईसी-40669) कर्नल (टीएस) नवदीप सिंह सोलंकी, सिग्नल्स

(आईसी-40779) कर्नल सुरेश कुमार, एएससी

(आईसी-40979) ले. कर्नल कांति लाल देवरा, एएससी

(आईसी-41022) ले. कर्नल प्रदीप नेथानी, एएससी

(आरसी-1024) मेजर प्रदीप कुमार बरुआ, ईएमई

(एसएल-3161) ले. कर्नल बलबीर सिंह, आरओ

(एसएल-3250) ले. कर्नल सुबोध चन्द्र मन्डल, सिग्नल्स

(एसएल-3393) ले. कर्नल रविन्द्र नाथन के वी, सिग्नल्स

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 अक्टूबर, 2008 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना स्थाई कमीशन

(आईसी-31028) कर्नल (टीएस) शिवदेव सिंह, आर्टी

(आईसी-31158) कर्नल (टीएस) राजेन्द्र सिंह, सलाथिआ, एएडी

(आईसी-31182) कर्नल (टीएस) प्रदीप सिंह, एओसी
 (आईसी-31412) कर्नल (टीएस) विवेकानन्द भारद्वाज, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31470) कर्नल (टीएस) अरुण कुमार गर्ग, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31522) कर्नल (टीएस) रवि शंकर सिंह, एओसी
 (आईसी-31674) कर्नल गुरदीपइन्दर सिंह डिल्लो, एसी
 (आईसी-31780) कर्नल राजीव सक्सेना, आर्टी
 (आईसी-31803) कर्नल (टीएस) अश्वनी कुमार तिनजानी, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-34140) कर्नल (टीएस) देव कुमार सरकार, आर्टी
 (आईसी-34166) कर्नल भूपेन्द्रा सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-34209) कर्नल (टीएस) दिग विजय सिंह पठानिया, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-34484) कर्नल सुरेश प्रकाश काबरा, एएडी
 (आईसी-34520) कर्नल (टीएस) अनिल गोपीनाथ, एसी
 (आईसी-34562) कर्नल (टीएस) प्रनभ कुमार दास, आर्टी
 (आईसी-34659) कर्नल विनय कुमार सदानन्द कुमता, ईएमई
 (आईसी-35054) कर्नल विजय प्रकाश सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-35812) कर्नल (टीएस) जगविन्दर मोहन शर्मा, ईसी
 (आईसी-36232) कर्नल हरजीत सिंह हुनजन, आर्टी
 (आईसी-36571) कर्नल (टीएस) हरदीप सिंह, एसी
 (आईसी-36750) कर्नल ज्योथीन रोबिन हरमन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-36783) कर्नल (टीएस) राजेन्द्र सिंह अहलावत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-36814) कर्नल (टीएस) कैलाश नाथ जेटली, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-36902) कर्नल (टीएस) सत्या प्रकाश सिंह पंवार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-36948) कर्नल चोपाली अनन्थ जगनाथा स्वामी, सिग्नल्स
 (आईसी-36951) कर्नल विकास आनन्द, एसी
 (आईसी-36994) कर्नल (टीएस) राजागोपालन वेंकटेशन, इंजीनियर्स
 (आईसी-37095) कर्नल (टीएस) गजेन्द्र पाल सिंह कटाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-37136) कर्नल (टीएस) हरसुख सिंह पाल, एसी
 (आईसी-37181) कर्नल सुकुमार बेनर्जी, एसी
 (आईसी-37265) कर्नल (टीएस) के मोहन दासन, आर्टी
 (आईसी-37267) कर्नल (टीएस) शिरीश वसन्त वाखरे, सिग्नल्स
 (आईसी-37355) कर्नल रणबीर सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-37362) कर्नल (टीएस) गुरजीत सिंह बरार, एएडी
 (आईसी-37390) कर्नल (टीएस) विजय शर्मा, आर्टी
 (आईसी-37432) कर्नल (टीएस) दीपक एडिब, एसी

(आईसी-38258) कर्नल पनचम सिंह तोमर, ईएमई
 (आईसी-40046) कर्नल तारा चन्द, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-40404) कर्नल (टीएस) बोध राज शर्मा, सिग्नल्स
 (आईसी-40506) कर्नल गिरधारी नाथ गोस्वामी, एएससी
 (आईसी-40575) कर्नल (टीएस) रघबीर सिंह, आर्टी
 (आईसी-40613) कर्नल (टीएस) गोपाल लाल शर्मा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-40622) कर्नल (टीएस) सुखदेव सिंह भुल्लर, एसी
 (आरसी-1070) मेजर के पी जोसफ, ईएमई
 (आरसी-978) मेजर शशीधरन नैयर पी आर, इंजीनियर्स
 (एसएल-3027) ले. कर्नल जन्म सिंह गुलेरिया, आरओ
 (एसएल-3048) कर्नल अनसुया प्रसाद कुमारी, इंजीनियर्स
 (एसएल-3251) ले. कर्नल हरभजन सिंह ग्रोवर, सिग्नल्स
 (एसएल-3402) ले. कर्नल गुरचरन सिंह, एओसी
 (एसएल-3541) ले. कर्नल शाम दास शर्मा, ईसी
 (एसएल-3575) ले. कर्नल जोगिन्दर सिंह, ईएमई
 (एसएल-3700) ले. कर्नल गनेश नाथ भन्डारी, सिग्नल्स
 (एसएल-3747) ले. कर्नल ओंकार नाथ तिवारी, आरओ
 (एसएल-3813) ले. कर्नल जगजीत सिंह, ईएमई
 (एसएल-3821) ले. कर्नल ओम प्रकाश अवस्थी, ईएमई

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 30 नवम्बर, 2008 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना स्थाई कमिशन

(आईसी-30393) कर्नल शमशेर सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-30522) कर्नल (टीएस) दरब सिंह, एसी
 (आईसी-30834) कर्नल विक्रम सिंह नेगी, एएससी
 (आईसी-30850) कर्नल (टीएस) अशोक कुमार आनंद, सिग्नल्स
 (आईसी-31010) कर्नल (टीएस) रशपाल सिंह समकारिआ, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31085) कर्नल यशपाल सिंह वधवा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31161) कर्नल तरुण ग्रोवर, एओसी
 (आईसी-31363) कर्नल अजयताज सिंह, एसी
 (आईसी-31419) कर्नल नवीन चोपड़ा, इन्ट कोर
 (आईसी-31464) ले. कर्नल हरीश हुक्मताराय गजरिया, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31503) कर्नल रोनाल्ड अशोक एन्ड्रयू राजकुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31534) कर्नल (टीएस) अजय कुमार, इन्फैन्ट्री

(आईसी-31837) कर्नल (टीएस) अनिल कुमार, आर्टी
 (आईसी-34168) कर्नल सरबजीत सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-34199) कर्नल भूपेन्द्र सिंह रेहल, आर्टी
 (आईसी-34324) कर्नल (टीएस) भगवंत किशोर दत्त शर्मा, ईएमई
 (आईसी-34615) कर्नल (टीएस) सुब्रामनियन कमेशवरा रामानाथन, आर्टी

(आईसी-34644) कर्नल (टीएस) नरेन्द्र सिंह महारा, एएससी
 (आईसी-34694) कर्नल (टीएस) प्रदयोट बरन सरकार, इंजीनियर्स
 (आईसी-35405) कर्नल (टीएस) दल सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-35410) कर्नल (टीएस) देवेन्द्र सिंह मेहरा, ईएमई
 (आईसी-35438) कर्नल (टीएस) इन्दू प्रभाकर सिंह, ईएमई
 (आईसी-35827) कर्नल सतीश यशपाल मेहता, ईएमई
 (आईसी-36439) कर्नल (टीएस) जसविन्दर पाल सिंह, आर्टी
 (आईसी-36594) कर्नल (टीएस) विजय कुमार सेठ, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-36758) कर्नल (टीएस) पेनूमूर्ति वेंकट दुर्गा प्रसाद, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-37286) कर्नल (टीएस) राजेन्द्र सिंह बहल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-37377) कर्नल (टीएस) बलबीर सिंह धलत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-37436) कर्नल (टीएस) रामपाल रमेशकुमार अजुध्यानाथ, इंजीनियर्स

(आईसी-39134) ले. कर्नल पदमानाभन पी, आर्टी
 (आईसी-39196) कर्नल (टीएस) विजयन एस, आर्टी
 (आईसी-39285) कर्नल (टीएस) सुरेन्द्र सिंह शेखावत, एएससी
 (आईसी-39626) कर्नल (टीएस) जगत सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-39933) ले. कर्नल धनेश्वर सामल, एएडी
 (आईसी-40396) कर्नल (टीएस) राज कुमार मुंशी, आर्टी
 (आरसी-0980) मेजर अरविन्दकशन सी, सिग्नल्स
 (आरसी-1019) मेजर मोहनन एम आर, इंजीनियर्स
 (आरसी-1031) मेजर सुखदेव सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आरसी-1059) मेजर किशोर सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री
 (एसएल-3554) ले. कर्नल वेद प्रकाश, ईएमई
 (एसएल-3678) ले. कर्नल मनायथ गैसपर सेवी, ईएमई
 (एसएल-3781) ले. कर्नल त्रिलोक सिंह बाजवा, क्यूएम

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 से उन की साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं:--

नियमित सेना स्थाई कमीशन

(आईसी-30495) कर्नल (टीएस) मृदुल बरकाकोटी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-30739) कर्नल अजीत सिंह वी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-30851) कर्नल (टीएस) भारत कुमार देका, सिग्नल्स

(आईसी-31018) कर्नल सुरेश जेटली, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31393) कर्नल (टीएस) प्रभात सिंह जसरोटिया, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-31397) कर्नल (टीएस) रमेश शर्मा, एसी
 (आईसी-31776) कर्नल बीर करण सहगल, एओसी
 (आईसी-31841) कर्नल (टीएस) हनुमंत सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-34126) कर्नल प्रवीण आलूवालिया, आर्टी
 (आईसी-34433) कर्नल (टीएस) सुखवीर, आर्टी
 (आईसी-34618) ले. कर्नल शेषादरी रामानुजम, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-35064) कर्नल (टीएस) प्रदीप कुमार सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-35092) कर्नल (टीएस) संजीव अलिपुरिया, इंजीनियर्स
 (आईसी-35452) कर्नल (टीएस) अनुराग भार्गव, इंजीनियर्स
 (आईसी-35823) कर्नल (टीएस) एंटनी एन्थोनिसेमी, ईएमई
 (आईसी-35855) कर्नल (टीएस) गुरुचरण सिंह गुरओन, ईएमई
 (आईसी-35940) कर्नल जगदीश कुमार, एएससी
 (आईसी-36664) कर्नल सुनील कुमार चांद, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-36920) कर्नल (टीएस) प्रमोद स्वरूप गुप्ता, आर्टी
 (आईसी-37014) कर्नल (टीएस) पृथ्वी राज सिंह, एसी
 (आईसी-37162) कर्नल (टीएस) बिरेन्द्र मोहन, इंजीनियर्स
 (आईसी-37327) कर्नल (टीएस) शालिग राम, एएससी
 (आईसी-37424) कर्नल (टीएस) महेश राजन बोस, ईएमई
 (आईसी-38216) कर्नल (टीएस) प्रदीप कुमार चौहान, इंजीनियर्स
 (आईसी-38622) कर्नल (टीएस) सुधीर कुमार झा, ईएमई
 (आईसी-38692) कर्नल (टीएस) तरुण बोरा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-38835) कर्नल (टीएस) गणेश कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-39421) कर्नल (टीएस) कार्तिके सिन्हा, ईएमई
 (आईसी-39477) कर्नल (टीएस) पून चन्द चन्देल, आर्टी
 (आईसी-39486) कर्नल शिशुपाल सिंह, इन्ट कोर
 (आईसी-39671) कर्नल (टीएस) रघूविन्दर सिंह बोहरा, आर्टी
 (आईसी-40102) कर्नल बलराज सिंह चीमा, आर्टी
 (आईसी-40144) कर्नल राजेन्द्र प्रसाद जोशी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-40310) कर्नल (टीएस) करण राम ढाका, सिग्नल्स
 (आईसी-40494) कर्नल (टीएस) दूबे शिव शंकर, आर्टी
 (आईसी-40525) कर्नल (टीएस) भीम सिंह भट्टी, आर्टी
 (आईसी-40535) कर्नल (टीएस) प्रशोत्तम चन्द नाग, एएससी
 (आरसी-0977) मेजर थोमस के एस, सिग्नल्स
 (आरसी-0981) मेजर पदमानाभन, इंजीनियर्स
 (आरसी-0982) मेजर जय राम तनवर, मैक इन्फैन्ट्री
 (आरसी-0983) मेजर बालाकृष्णन एम, आर्टी

(आरसी-0984) मेजर रवि शंकर पाण्डे, कुमाँऊ	(आरसी-1026) मेजर बलविन्दर सिंह, आर्टी
(आरसी-0985) मेजर ओम प्रकाश त्रिपाठी, ईएमई	(आरसी-1027) मेजर राजन सी ओ, ईएमई
(आरसी-0986) मेजर बोध राज, जेएके एलआई	(आरसी-1028) मेजर श्रीधरन पिल्लई टीपी, सिग्नल्स
(आरसी-0987) मेजर अरविन्द कुमार थापा, इन्फैन्ट्री	(आरसी-1030) मेजर सी पुरुषोत्तमन, सिग्नल्स
(आरसी-0990) मेजर शरत चन्द्र महन्ता, ईएमई	(आरसी-1032) मेजर देवेन्द्र पाल, इन्फैन्ट्री
(आरसी-0991) मेजर कृष्ण लाल, मेक इन्फैन्ट्री	(आरसी-1033) मेजर रघबीर सिंह, इन्फैन्ट्री
(आरसी-0992) मेजर प्रफुल चन्द्ररन ई, ईएमई	(आरसी-1034) मेजर बिनोद कुमार थापा, इन्फैन्ट्री
(आरसी-0993) मेजर श्री मुन्ना सिंह, इन्ट कोर	(आरसी-1035) मेजर सी पी गोपीमोहन, इंजीनियर्स
(आरसी-0995) मेजर जगदीश प्रसाद, इन्फैन्ट्री	(आरसी-1036) मेजर पी देवादास, इंजीनियर्स
(आरसी-0997) मेजर कृष्ण बहादुर, इन्फैन्ट्री	(आरसी-1037) मेजर श्रवण सिंह, इन्फैन्ट्री
(आरसी-1000) मेजर बलकार सिंह, इन्फैन्ट्री	(आरसी-1038) मेजर पी शैखर, सिग्नल्स
(आरसी-1001) मेजर घासी राम चौधरी, इन्फैन्ट्री	(आरसी-1039) मेजर सुखविन्द्र सिंह, एसी
(आरसी-1003) मेजर धर्मपाल यादव, आर्टी	(आरसी-1040) मेजर चोक बहादुर थापा, इन्फैन्ट्री
(आरसी-1006) मेजर जी सीनीराज, इन्फैन्ट्री	(आरसी-1041) मेजर श्रीमन लाल, एसी
(आरसी-1007) मेजर धर्म पाल, सिग्नल्स	(आरसी-1043) मेजर कमलेश नन्दी, सीएमपी
(आरसी-1008) मेजर बिरेन्द्र सिंह तोमर, राजपूत	(आरसी-1044) मेजर गजे सिंह, एसी
(आरसी-1010) मेजर गणेश चन्द, इंजीनियर्स	(आरसी-1045) मेजर बलविन्द्र सिंह, सिग्नल्स
(आरसी-1011) मेजर बेलावालेकर आर जी, सिग्नल्स	(आरसी-1046) मेजर सुरेश चन्द्र यादव, ईएमई
(आरसी-1013) मेजर इन्द्र बहादुर गुरुंग, इन्फैन्ट्री	(आरसी-1047) मेजर वरूणीज पी सी, ईएमई
(आरसी-1014) मेजर एम मुथूराम, इंजीनियर्स	(आरसी-1050) मेजर बिश्वनाथ चकलादर, आर्टी
(आरसी-1015) मेजर बिनोद कुमार सिंह, सिग्नल्स	(एसएल-3812) ले. कर्नल सतेन्द्र नारायण सिंह, ईएमई
(आरसी-1016) मेजर घरू राम डोगरा, ईएमई	(एसएल-3366) ले. कर्नल एस चलेपांडियन, इंजीनियर्स
(आरसी-1017) मेजर बहादुर सिंह, ईएमई	(एसएल-3394) कर्नल छत्तर पाल सिंह, सिग्नल्स
(आरसी-1018) मेजर जसमिन्दर सिंह भन्धेर, ईएमई	(एसएल-3485) ले. कर्नल अब्दुल हमीद, सिग्नल्स
(आरसी-1020) मेजर राम मोहन पाण्डे, सिग्नल्स	(एसएल-3578) ले. कर्नल नारायणन एन, ईएमई
(आरसी-1021) मेजर मुरलीधरन नैयर पी, ईएमई	(एसएल-4026) ले. कर्नल बीआर रॉय, आरओ
(आरसी-1022) मेजर हरबंस लाल, इन्फैन्ट्री	
(आरसी-1023) मेजर उमा शंकर ठाकुर, इंजीनियर्स	
(आरसी-1025) मेजर कुलदीप सिंह, सिग्नल्स	

जयन्त चक्रवर्ती
उप निदेशक
एमएस-7ए
कृते सेना सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

ARMY BRANCH

New Delhi, the 19th September 2009

No. 513, dated 20th July 2009.—The President is pleased to make the following promotions w.e.f. the date shown against their names :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to be Substantive Lt Col

(V-534L) Maj Vikas Thakur, RVC, 05 Apr 2009

(V-539K) Maj SK Choubey, RVC, 05 Apr 2009

(V-540Y) Maj HK Tiwari, RVC, 05 Apr 2009

(V-541F) Maj B Rajakumar, RVC, 05 Apr 2009

(V-545X) Maj Sukhbir Singh, RVC, 05 Apr 2009

(V-546A) Maj P Deenathayalan, RVC, 05 Apr 2009

(V-548L) Maj Pankaj Verma, RVC, 05 Apr 2009

PR VENKATESH

Col

Dir RVS (Pers)

AIR FORCE

No. 514, dated 20th July 2009.—The President is pleased to make the following Substantive Promotions :—

INDIAN AIR FORCE

WG Cdr to be Substantive GP Capt (TS)

F(N) BRANCH

RP Kumar (16839), S Shekhar (16837)—w.e.f. 04 Jun 2008

ADM BRANCH

MH Siddiqui (17049), S Kumar (17052), D Vermani (17037), R Varshney (17032), SR Bardhan (17055), DN Panda (17050), AS Dongre (17031), MA Sridhar (17027), AK Nair (17048), R Kapoor (17039), S Banerjee (17066), S Mukhopadhyay (17061), S Karunakar (17042), CJS Manhas (17040), CP Nigam (17054), VK Tiwari (17058), JK Chandna (17043), SK Nath (17046), SK Mittal (17051)—w.e.f. 29 Dec 2008

EDN BRANCH

KN Trivedi (17080), AK Mittal (17079), KC Taneja (17072), A Mahajan (17074), K Singh (17082)—w.e.f. 29 Dec 2008

WG Cdr to be Substantive GP Capt (TS)

ADM BRANCH

R Sharma (16847), KP Sharma (16851), S Sharda (16848), AK Saxena (16844), SR Dashrathi (16846), P Daniel (16850)—w.e.f. 04 Jun 2008

GKH Chourse (16884), w.e.f. 11 Jun 2008

LGS BRANCH

AG Soman (16856), A Kohli (16863), S Chatterjee (16070), A Madan (16864), RSR Sharma (16861), SK Dube (16859),

S Verma (16862), BK Das (16857), RC Tripathi (16858)—w.e.f. 04 Jun 2008

ACCTS BRANCH

NPS Dalmi (16872), AK Bali (16878), EP Padmaraj Nambiar (16886), MNP Babu (16869), RV Bhir (16882), IS Kharb (16877), DVV Dattu (16879), Pradeep Singh (16876), BK Chowdhury (16868)—w.e.f. 04 Jun 2008

WG Cdr to be Substantive GP Capt (TS)

ADM BRANCH

KC Kalita (16622), w.e.f. 11 Dec 2007

WG Cdr to be Substantive GP Capt (TS)

F(P) BRANCH

A Bali (16996), VS Rathour (16993), AK Gupta (17007), Y Jain (17011), MM Nassar (17012)—w.e.f. 29 Dec 2008

LGS BRANCH

S Chakraborty (17003), w.e.f. 29 Dec 2008

WG Cdr to be Substantive GP Capt (TS)

F(N) BRANCH

K Ravi Sekhar (17025), w.e.f. 29 Dec 2008

WG Cdr to be Substantive GP Capt (TS)

AE(M) BRANCH

PSG Mojumder (17274), Sanjay Kumar (17275), CM Raju (17285)—w.e.f. 20 Aug 2008

AE(L) BRANCH

VK Gupta (17293), AJ Devakumar (17290)—w.e.f. 20 Aug 2008

Wg Cdr to be Substantive GP Capt (TS)

F(P) BRANCH

UN Nayak (16831), HK Mishra (16814), AP Christopher (16825), MP Surange (16797), GS Sandhu (16821), MG Mehta (16810)—w.e.f. 04 Jun 2008

Sqn Ldr to be Substantive WG Cdr

F(P) BRANCH

KS Lamba (23506), S Raj (23574), A Singhal (23534), YK Daksh (23565), S Ray (23560), RS Dhaliwal (23535), GK Pillai (23571), P Dutta (23556), P Bhardwaj (23521), KS Deswal (23517), M Kumar (23514), AS Parandekar (23567), FP Pinto (23569), GS Butalia (23551), A Pujari (23536), M Khare (23537), AP Singh (23538), R Beri (23533), A Kumar (23553), V Malhotra (23518), SK Kanwar (23520), BS Beasley (23544), VK Dubey (23540), R Shivraj (23532), A Kumar (23529), A Gopinath (23558), H Kulshreshtha (23545), A Malhotra (23549), RV Prakash (23523), A Goswami (23572), P Awasthi (23541), S Malik (23563), K Mukherjee (23526), PH Jagannath (23566), V Singh (23508), SV Munje (23511), BN Athreya (23509), VJ Singh (23519), R Rajesh (23570), A Paiva (23516), Tha Shaikh (23527), CP Dwivedi (23562), A Nandy (23552), D Gracias (23575), AB Lulay (23568)—w.e.f. 17 Jun 2008

LGS BRANCH

A Agarwal (23528), w.e.f. 17 Jun 2008

N VIJAY KUMAR
Wg Comdr
Jt Dir
Personnel Offrs—3(D)

(ARMY BRANCH)

No. 515, dated 20 July 2009—The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 31 Jan 2008:—

Pers No., Rank, Name, Arm

(IC-27733) Col (TS) Arvindar Pal Singh Molhotra, Arty	(IC-34405) Col Minhas Surendra Singh, Arty
(IC-30008) Col Balakrishnan Govindarajan, AOC	(IC-34510) Col (TS) Ajit Kumar Roy, Inf
(IC-30339) Col Kiran Kumar Dangwal, Engrs	(IC-34588) Col (TS) Chaubey Madan, Arty
(IC-30395) Col (TS) Bhupindra Yadav, Arty	(IC-34592) Col Mrutyunjaya Panigrahi, Inf
(IC-30420) Col (TS) Pabitra Mohan Goswami, Inf	(IC-34643) Col (TS) Madan Singh, Inf
(IC-30440) Col Issar Rajesh Nath, Arty	(IC-35098) Col (TS) Muthukrishnan Durai Raj, Engrs
(IC-30586) Col (TS) Biman Kumar Sharma, Arty	(IC-35443) Col (TS) Prem Kumar Nayak, Sigs
(IC-30712) Col Shishir Kumar Ghosh, Inf	(IC-35831) Col (TS) Vinay Kumar Mudgal, Engrs
(IC-30757) Col (TS) Chandam Ranjan Kumar Singh, Inf	(IC-35851) Col (TS) Devendra Kumar Sharma, EME
(IC-30782) Col (TS) Rakesh Kumar Sahay, ASC	(IC-35872) Col (TS) Pradeep Singh Rautela, EME
(IC-30784) Col (TS) Deepak Sen, Inf	(IC-35952) Col Pitchai Raman, Arty
(IC-31036) Col (TS) Denis Raymond Lobo, Inf	(IC-36221) Col Richard Lionel Route, Inf
(IC-31053) Col Satish Prabhakar Joshi, Inf	(IC-36330) Col (TS) Chitoor Govind Shankar Prakash, Inf
(IC-31055) Col (TS) Swapan Kumar Giri, Inf	(IC-36757) Col (TS) Jagdish Kumar Ojha, ASC
(IC-31081) Col Suresh Pal Singh, ASC	(IC-36772) Col Kashav Rishi Bhatnagar, Inf
(IC-31089) Col Mehta Vinay, AAD	(IC-36852) Col (TS) Brajraj Kumar Sharma, Arty
(IC-31162) Col (TS) Dilip Kumar Joshi, Inf	(IC-36916) Lt Col Erumbala Krishana Umashankar, Sigs
(IC-31166) Col (TS) Nirmal Kumar Paul, Inf	(IC-36943) Col Krishna Nand Jha, Arty
(IC-31176) Col (TS) Ravinder Singh, AAD	(IC-37045) Col Ramesh Kumar Sharma, Mech Inf
(IC-31178) Col Shanthi Kumar, Inf	(IC-37159) Col (TS) Sundaram Rana Gopal, Sigs
(IC-31187) Col Menon Karat Gopal, Arty	(IC-37534) Lt Col Raj Karan Singh Yadava, AOC
(IC-31354) Col (TS) Bhopal Singh, AC	(IC-38541) Col (TS) Brojendra Kumar Mandal, Inf
(IC-31467) Col (TS) Jose Joseph, Arty	(IC-39136) Col (TS) Bhagwan Dass, Inf
(IC-31892) Col (TS) Narinder Pal Singh, Inf	(IC-39239) Col (TS) Kamlesh Kumar, Arty
(IC-31893) Col (TS) Bogar Paris Yeshavant, Arty	(IC-39547) Col (TS) Tek Chand Dahiya, Arty
(IC-31902) Col (TS) Gopal Singh, Inf	(IC-39674) Lt Col Lalit Kumar Borah, ASC
(IC-31987) Col Swami Das, AEC	(IC-39688) Col (TS) Krishna Kant Tripathi, Inf
(IC-33937) Lt Col Sarvjeet Singh, Engrs	(IC-39759) Lt Col Dev Kumar Gurung, Inf
(IC-34104) Col (TS) Pranesh Rudrapal, AC	(IC-39982) Lt Col Malkiat Singh, Arty
(IC-34191) Col (TS) Karnail Singh Kukreja, Sigs	(IC-40182) Col (TS) Kishor Singh Chauhan, Inf
(IC-34240) Col (TS) Pawan Kumar Kapoor, ASC	(IC-40193) Lt Col Divakar Sawant Sunil, Arty
(IC-34267) Col Mahesh Prasad Mathur, EME	(IC-40207) Lt Col Santanu Kumar Aich, Arty
	(RC-1042) Maj Yasam Subba Rayudu, ASC
	(RC-998) Maj Balbir Singh, ASC
	(SL-3335) Lt Col Dilbagh Singh, RO
	(SL-3423) Lt Col Mahesh Kumar, EME
	(SL-3508) Lt Col Shyam Lal Talwar, QM
	(SL-3514) Lt Col Ginagam Parvathesam, Sigs
	(SL-3743) Lt Col Assri Chirayil Domman Thomsikutty, Sigs
	(SL-3919) Lt Col Sukhdev Singh Chauhan, QM
	(SL-3924) Lt Col AP Reddy, Sigs
	(SL-3987) Lt Col Jasbir Singh, RO

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 29 Feb 2008:—

Pers No., Rank, Name & Arm

(IC-27946) Col Yogendera Singh Negi, Mech Inf
 (IC-30203) Col (TS) Suresh Kumar, AAD
 (IC-30343) Col (TS) Satya Vir Yadav, Inf
 (IC-30484) Col Dilip Kumar Borah, Inf
 (IC-30548) Col (TS) Manjeet Singh Chopra, EME
 (IC-30557) Col (TS) Mukti Nath Nath, Arty
 (IC-30825) Col Satish Chander, Inf
 (IC-30931) Col Chandrasen Dinkarrao Nikam, Engrs
 (IC-31217) Col (TS) Arvind Khare, AOC
 (IC-31395) Col Trilochan Singh Minhas, Sigs
 (IC-31515) Lt Col (TS) Sarang Wasudeo Thatte, Sigs
 (IC-31520) Col (TS) Rajiv Vasudevan, AC
 (IC-31637) Col Shamsher Singh, AC
 (IC-31692) Col (TS) Bhaskaran Murlidharan Nair, AAD
 (IC-31755) Col Dilbagh Singh Mann, AAD
 (IC-31828) Col (TS) Karam Dip Singh Sawhney, Inf
 (IC-31859) Col (TS) Candrasekharan Srinivas, Inf
 (IC-33961) Col Herminder Singh, Inf
 (IC-34027) Col (TS) Ashoke Kumar Saha, AOC
 (IC-34276) Lt Col Rakesh Kumar Pathak, Engrs
 (IC-34572) Col (TS) Sarjit Singh Raghaw, Inf
 (IC-34667) Col (TS) Rajendra Kumar Rai, Engrs
 (IC-34688) Col (TS) Satyodaya Prakash Sahukar, Engrs
 (IC-34710) Col (TS) Kamal Raj Minocha, Engrs
 (IC-35455) Lt Col Ashok Kumar Singh, Engrs
 (IC-35618) Col (TS) Gain Chand, AOC
 (IC-35751) Col (TS) Bijendra Lal Das, Arty
 (IC-35875) Col (TS) Jaspal Singh, Arty
 (IC-36134) Col (TS) Bijay Kumar Chaturvedy, Inf
 (IC-36196) Col Ripu Daman Singh Saharan, AC
 (IC-36674) Col Kulbhushan Madar, Inf
 (IC-36834) Col Venugopal Sivanandam, Inf
 (IC-36859) Lt Col Saurabh Kumar, Arty
 (IC-36862) Col (TS) Subrahmanyam Vijayaraghavan, Inf
 (IC-36922) Col (TS) Srihari Ramamurthy, Engrs
 (IC-37034) Col (TS) Sivasagar Patel, Mech Inf
 (IC-37063) Col (TS) Sajjan Lal, Inf
 (IC-37107) Col (TS) Yaspal Singh Chauhan, Inf
 (IC-37301) Col Satish Kumar Datta, Engrs
 (IC-37317) Col Samuel Arthur Roy, Mech Inf

(IC-38235) Col (TS) Ramakant Jha, EME
 (IC-38313) Col Raghbir Singh, Inf
 (IC-39164) Col Ashok Kumar Singh, Inf
 (IC-39304) Col (TS) Dev Raj, Arty
 (IC-40141) Col (TS) Krishna Gopal Limbu, Inf
 (IC-40199) Col (TS) Maluk Singh, Arty
 (IC-40652) Lt Col Kulwant Singh, AOC
 (RC-00974) Maj Duraisamy Naickar Subramani, Engrs
 (SL-03106) Lt Col Bachan Singh, QM
 (SL-03524) Lt Col Jagdish Singh, RO
 (SL-03753) Lt Col Chamarty Venkata Lakshmi Narasimha Rao, RO
 (SL-03806) Lt Col Gulshan Kumar Sharma, EME
 (SL-03888) Lt Col Mangal Singh, QM
 (SL-03934) Lt Col Gopal Tamilmani Mudaliar, QM
 (V-343) Col Sham Sunder Rajpal, RVC

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 31 Mar 2008:—

Pers No., Rank, Name & Arm

(IC-27952) Col Bimal Kishore Charan, EME
 (IC-27998) Lt Col Kulbhushan Sharma, Inf
 (IC-30378) Col Randip Singh Dhadwal, Inf
 (IC-30398) Col Jamshed Husain, Inf
 (IC-30401) Col Mohan Chandra Baruah, Inf
 (IC-30593) Col (TS) Pradeep Kumar Tewari, Inf
 (IC-30690) Col Yashwant Singh Chahal, AC
 (IC-30794) Col Girish Mehra, Arty
 (IC-30876) Col Kanwaljit Singh, Inf
 (IC-30912) Col (TS) Mandev Singh, Arty
 (IC-31032) Col (TS) Abraham Jacob, Arty
 (IC-31098) Col (TS) Phul Kumar, ASC
 (IC-31188) Col (TS) Bhuwaneshwar Singh Rawat, Inf
 (IC-31194) Col (TS) Bal Krishan, Inf
 (IC-31300) Col Lakshmi Pati Dasika, Engrs
 (IC-31362) Col Gobinda Chandra Rath, AC
 (IC-31366) Col Gurbrinder Singh Mann, Arty
 (IC-31425) Col (TS) Ranjit Kumar Baruah, Inf
 (IC-31465) Col Tarun Poddar, Inf
 (IC-31544) Col (TS) Gurdas Singh Waraich, AOC
 (IC-31734) Col (TS) Vinoy Kumar Mehta, Inf
 (IC-31868) Col Ravinder Kumar Gosain, Inf
 (IC-31879) Col Vasudevan Damodaran Potty, Arty
 (IC-34193) Col (TS) Hemant Kumar Bhattacharya, Arty

(IC-34280) Col (TS) Narendera Pal Singh, EME
 (IC-34672) Col (TS) Veeraragavan Rajamanickam
 Villavankotha, Sigs
 (IC-35070) Col (TS) Bishwajit De, EME
 (IC-35404) Col Anil Kumar Seth, Sigs
 (IC-36455) Lt Col Manohar Anaya Naidu, Arty
 (IC-36550) Col Krishna Pal Singh Khati, Inf
 (IC-36649) Col (TS) Rajender Singh, EME
 (IC-36924) Col (TS) Suresh Kumar Anantha Shenoy, AC
 (IC-36966) Col Sunil Sircar, Inf
 (IC-37142) Col (TS) Sriprakash Sridhar, Inf
 (IC-37289) Col (TS) Vikram Rajagopalan, Arty
 (IC-37456) Col Shankar Rao Chappati, EME
 (IC-38156) Col (TS) Milan Thapa, Inf
 (IC-38345) Col (TS) Budh Ram, Inf
 (IC-38629) Col (TS) Rajive Bharadwaj, Sigs
 (IC-38842) Col Brajendra Kumar Dash, Sigs
 (IC-39022) Col (TS) Har Govind Singh, Arty
 (IC-39684) Col (TS) Balendu Pratap Singh Kushwaha, AC
 (IC-39813) Col (TS) Pradeep Kumar Pattnayak, Engrs
 (IC-40086) Col (TS) Nahar Singh, Arty
 (IC-40255) Col (TS) Raj Kishore Singh, ASC
 (IC-40454) Lt Col Kiran Shankar Chakrabarti, Sigs
 (IC-40587) Lt Col Jai Singh, ASC
 (RC-1005) Maj Bhawani Singh Rathore, Inf
 (SL-02918) Lt Col MN Surendran, RO
 (SL-03012) Lt Col Manohar Lal Sharma, QM
 (SL-03137) Lt Col Gian Chand Verma, RO
 (SL-03401) Lt Col Dalip Chand, AOC
 (SL-03636) Lt Col Nirmal Krishna Samajpati, EME
 (SL-03802) Lt Col Dhyan Chand Verma, EME
 (SL-03913) Lt Col CJ Joseph, EME
 (SL-3210) Lt Col Madan Gopal Garg, Engr
 (SL-3249) Lt Col Baljinder Singh, Sigs
 (SL-3253) Lt Col Rajendra Singh Dasila, Sigs
 (SL-3484) Lt Col Yogendra Kumar Singh, Sigs
 (SL-3516) Lt Col Shokat Ali, AEC
 (SL-33599) Lt Col Gajjan Singh Bajwa, Sigs
 (SL-3862) Lt Col Lakshmana Ayyangar Sampath, Sigs
 (V-333) Col Mihir Bhattacharjee, RVC

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 30 Apr 2008:—

Pers No., Rank, Name & Arm

(IC-30146) Col Rakeshwar Singh, Inf

(IC-30329) Col (TS) Jyoti Vardhan, Inf
 (IC-30391) Col Upender Singh, Inf
 (IC-30425) Col (TS) Ajit Singh, Sig
 (IC-30433) Col (TS) Talikicherla Kandalam Ramanujam,
 AAD
 (IC-30450) Col (TS) Jasbir Singh Chauhan, Arty
 (IC-30472) Col (TS) Surendra Pati Tripathi, Inf
 (IC-30517) Col (TS) Jangvir Singh Rathee, Inf
 (IC-30717) Col (TS) Ballachandra Nachappa Somanna, Inf
 (IC-30796) Col Thyagarajan Prabhakar, ASC
 (IC-30831) Col (TS) Sunil Kumar Sinha, EME
 (IC-30925) Col Vikram Baru, Engrs
 (IC-31029) Col Jagdev Singh Yadav, Inf
 (IC-31044) Col (TS) Sidharth Seth, Arty
 (IC-31106) Col (TS) Gautam Mazumdar, Engrs
 (IC-31133) Col (TS) Ravindranath Aiyappa, Inf
 (IC-31171) Col (TS) Subodh Kumar Bhatt, Engrs
 (IC-31375) Col (TS) Kailash Chand, Mech Inf
 (IC-31457) Col Bal Krishan, Inf
 (IC-31848) Col Shailendra Kumar Singh, Inf
 (IC-31873) Col (TS) Maniklal Biswas, Inf
 (IC-33963) Col (TS) Rebello Victor Robert, Inf
 (IC-34105) Col Hoshiar Singh Kundu, Inf
 (IC-34183) Col Kuldeep Singh Cheema, Inf
 (IC-34262) Col Mohinder Singh, AEC
 (IC-34327) Col Deepak Bhaskarrao Gade, Engrs
 (IC-34581) Col (TS) Sidharth, Arty
 (IC-34699) Col Vijay Kumar Bhatia, Engrs
 (IC-35023) Col Ashok Kumar Sharma, Engrs
 (IC-35430) Col Ashok Kumar Singh, Sig
 (IC-35822) Col (TS) Nagendra Singh, EME
 (IC-35886) Col (TS) Narayan Parwani, Engrs
 (IC-36197) Col (TS) Upendra Raina, Inf
 (IC-36277) Col (TS) Raja Shekhar, Inf
 (IC-36368) Lt Col Udai Vir Tyagi, Inf
 (IC-36400) Col (TS) Vivek Sood, Arty
 (IC-36937) Col (TS) Taranjit Singh, EME
 (IC-37104) Col (TS) Silter Erineu Rodrigues, AC
 (IC-37134) Col (TS) Vannarpeth Ganapathiappan
 Sundaravelu, Inf
 (IC-37280) Lt Col Kamal Narain Puri, Arty
 (IC-37302) Col Achappa Kuppana Nanjappa, Engrs
 (IC-37448) Col Vidosh Kumar Sabharwal, EME
 (IC-38584) Col (TS) Susheel Chandra, Inf

(IC-39055) Col (TS) Rupinder Singh, Engrs
 (IC-39503) Col (TS) Deepak Kumar Pun, ASC
 (IC-39951) Col (TS) Tej Singh, AOC
 (IC-40049) Col Arun Prakash Pandey, Arty
 (IC-40175) Col (TS) Naresh Singh, Inf
 (RC-1009) Maj Sukhvir Singh, Inf
 (RC-989) Maj Gurnam Singh, Arty
 (SL-03321) Lt Col Sadhu Singh, QM
 (SL-03347) Lt Col Dil Bag Singh Pannu, RO
 (SL-03751) Lt Col Jagwant Singh, RO
 (SL-03863) Lt Col Vijay Kumar C, Sigs
 (SL-03961) Lt Col Kirpal Singh, APTC
 (SL-03986) Lt Col Ram Niwas Yadav, EME

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 31 May 2008:—

Pers No., Rank, Name & Arm

(IC-30405) Col (TS) Amar Jit Singh Wadhawan, Inf
 (IC-30469) Col Arun Prakash, Engrs
 (IC-30862) Lt Col Sharan Jeet Singh, Engrs
 (IC-31661) Col Hubert Prafulla May Soans, Arty
 (IC-31773) Col (TS) Anil Kumar Mehndiratta, AAD
 (IC-33927) Col (TS) Ashok Kumar Singh, Engrs
 (IC-34118) Col (TS) Yash Paul Loomba, ASC
 (IC-34213) Col (TS) Ajit Vinoba Samuel Andrews, Arty
 (IC-34567) Col Rajendra Singh, Inf
 (IC-34606) Col Biju Palamootilvadakathil Koshy, AOC
 (IC-34640) Col (TS) Ray Napier, ASC
 (IC-35399) Col (TS) Doddaballapur Krishnappa Prasad, Engrs

(IC-35450) Col (TS) Sudhapalli Lava Kumar, EME
 (IC-36084) Col (TS) Krishna Vallabha Ojha, Inf
 (IC-36292) Col (TS) Alok Chakravorty, Inf
 (IC-36356) Col Upendra Sachdev, AAD
 (IC-36359) Col Daljit Singh, Arty
 (IC-36740) Col (TS) Rajive Kanwar, Inf
 (IC-36864) Col Braja Bihari Patra, Inf
 (IC-36930) Col (TS) Erode Jagadeesan Jayakkannan, Sigs
 (IC-37112) Col (TS) Rai Singh, Inf
 (IC-37157) Col Ganesh Kumar Udayabhanu, EME
 (IC-37445) Col (TS) Bhupal Singh Bora, Engrs
 (IC-37732) Col Rakesh Kumar, EME
 (IC-38100) Col (TS) Surinder Singh Lather, Mech Inf
 (IC-38189) Col (TS) Rathindra Nath Auditya, Sigs

(IC-38260) Col (TS) Dinesh Kumar Singh, EME
 (IC-38386) Col Mam Raj Singh, Inf
 (IC-38502) Col (TS) Charan Kamal Singh, Inf
 (IC-38611) Col (TS) Rajiv Raghavan, EME
 (IC-39414) Maj Prakash Bindumadhav Pandurangi, Engrs
 (IC-39496) Col Satya Pal, Inf
 (IC-39806) Col (TS) Shiv Sharma, EME
 (IC-39900) Lt Col Tirath Singh Kanwar, Inf
 (IC-40100) Col (TS) Virupakshappa Udameeshi, Inf
 (IC-40174) Col (TS) Harendra Singh, AOC
 (RC-1012) Maj Bhosale K P, Sigs
 (RC-994) Maj R Kannaiah Reddy, Inf
 (RC-996) Maj K Murugasamy, ASC
 (SL-3055) Lt Col Babu Rajendra Prasad Turlapati, Engrs
 (SL-3150) Lt Col Harjit Singh Dhanjal, RO
 (SL-3247) Lt Col Hari Ram Sarohiwal, Sigs
 (SL-3265) Lt Col Yogender Pal Singh, AOC
 (SL-3280) Lt Col Purushothaman A N, EME
 (SL-3340) Lt Col Sankara Pillai, RO
 (SL-3568) Lt Col Prabhakara Kurup G, EME
 (SL-3655) Lt Col Kashi Visweswara Rao Rangineedi, RO
 (SL-3676) Lt Col N Rajagopal, EME
 (SL-3737) Lt Col Prem Singh, Sigs
 (SL-3760) Lt Col Pundaleekappa Medar, EME
 (SL-3843) Lt Col Priyatosh Biswas, Sigs
 (SL-3956) Lt Col Khadge VP, Sigs
 (SL-3957) Lt Col Vijay Singh Pabla, Sigs

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 30 Jun 2008:—

Pers No., Rank, Name & Arm

(IC-27750) Col Devendra Pratap Singh, Inf
 (IC-30376) Col Jitendra Kumar Ahluwalia, Engrs
 (IC-30685) Col Dhan Bahadur Thapa, Inf
 (IC-30764) Col Sushil Kumar Chauhan, Inf
 (IC-30775) Col (TS) Mohan Inder Ahlawat, Inf
 (IC-30778) Col Ravikiran Gangaram Kadam, Arty
 (IC-30877) Col (TS) Krishna Kamal Bora, Inf
 (IC-30999) Col (TS) Satinderjit Singh, Arty
 (IC-31102) Col (TS) Surinder Pal Singh, Engrs
 (IC-31136) Col (TS) Puthan Veetil Sunil Kumar, Inf
 (IC-31205) Col Arvind Kumar, Engrs
 (IC-31367) Col (TS) Ramesh Prasad Singh, Inf
 (IC-31402) Col (TS) Sydney Rudolph Desa, Inf

(IC-31444) Col (TS) Ravinder Chand Katoch, Inf
 (IC-31466) Col Narayan Murthy Shankar, Inf
 (IC-31486) Col Gangaikondan Venkataraman Kumar, Arty
 (IC-31710) Col Mahesh Tanwar, AC
 (IC-31857) Col (TS) Mariappan Balasubramani, Inf
 (IC-31878) Col (TS) Siddhartha Laxman Shinde, Arty
 (IC-34501) Col Mannattil Ramachandran, Inf
 (IC-34625) Col (TS) Jagdish Singh, Inf
 (IC-34631) Col (TS) Mathew Varghese Adipuzha, Int Corps
 (IC-34714) Col (TS) Raja Raman Sankara Narayanan, EME
 (IC-34894) Col Ravinder Singh Negi, Inf
 (IC-36016) Col (TS) Sharad Chandra Awasthi, AC
 (IC-36030) Col Rajiv Kakra, AAD
 (IC-36702) Col (TS) Kulkarni Satish Wamanrao, Sigs
 (IC-36808) Col (TS) Anil Joseph, AC
 (IC-36819) Col Vijay Kumar Mahajan, Inf
 (IC-36899) Col Manohar Singh, AC
 (IC-36984) Col (TS) Gudla Shivashankar Reddy, Sigs
 (IC-37047) Col Rakesh Bakshi, AC
 (IC-37205) Col (TS) Mohd Aslam Chaudhary, Arty
 (IC-37858) Col (TS) Akhil Kumar, EME
 (IC-38089) Col Md Esrarul Haque, Inf
 (IC-38225) Col (TS) Sunil Kumar Srivastava, Sigs
 (IC-38660) Lt Col Gopal Singh, Inf
 (IC-39069) Col Laxmi Narain Sharma, Arty
 (IC-39166) Lt Col Boota Singh Gill, Arty
 (IC-39248) Col (TS) Jeet Pal Singh, Inf
 (IC-39623) Col (TS) Punjab Singh, Inf
 (IC-39984) Col (TS) Jagrup Singh, Arty
 (IC-40053) Lt Col Amar Nath Yadav, Inf
 (IC-40118) Col (TS) Shiva Sewak Patel, Sigs
 (IC-40205) Col (TS) Kailash Chandra Tiwari, AOC
 (IC-40229) Col (TS) F Mohammed Habibullah, Arty
 (RC-976) Maj Govind Singh, Inf
 (SL-2525) Col (TS) Vinay Dalvi, APTC
 (SL-2648) Col (TS) YVS Jamwal, APTC
 (SL-3135) Lt Col Ram Chandra Pathak, RO
 (SL-3279) Lt Col Sudhakaran V, EME
 (SL-3539) Lt Col Didar Singh, Engrs

(SL-3616) Lt Col G Devarajulu, Sigs
 (SL-3748) Lt Col Mohar Singh, Sigs
 (SL-3832) Lt Col G Kannan, Engrs
 (SL-3881) Lt Col Gurcharan Singh Bhullar, QM

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 31 Jul 2008:—

Pers No., Rank, Name & Arm

(IC-30734) Col Anshu Trivedi, Inf
 (IC-30918) Lt Col Bidhan Chandra Choudhary, Sigs
 (IC-30923) Col (TS) Harkesh Kumar Lamba, Inf
 (IC-31051) Col Ashok Singh, Engrs
 (IC-31057) Col Ashit Bhola, AAD
 (IC-31093) Col Surindra Dutt, Arty
 (IC-31112) Col Rajbir Singh Rohella, Inf
 (IC-31181) Col Anup Kumar Gupta, Inf
 (IC-31210) Col (TS) Harpreet Singh Sarang, EME
 (IC-31340) Col Ravi Kumar Singh Pundir, Engrs
 (IC-31382) Col (TS) Neel Kamal Sachar, AC
 (IC-31384) Col Sudhir Kumar Sakhuja, Inf
 (IC-31394) Col Bharat Bhushan Sharma, Engrs
 (IC-31460) Col (TS) Sukhbir Singh Suhag, Inf
 (IC-31516) Col (TS) Ravindar Kumar, Engrs
 (IC-31822) Col (TS) Pankaj Mehra, Inf
 (IC-31905) Col (TS) Uday Sadashiv Agashe, ASC
 (IC-34573) Col (TS) Rajesh Kumar, Inf
 (IC-34936) Col (TS) Karan Singh Rathore, AC
 (IC-35050) Col (TS) Jagjit Singh, Engrs
 (IC-35388) Col (TS) Sunil Kumar Arya, EME
 (IC-35859) Col (TS) Suresh Kumar Sharma, Engrs
 (IC-36215) Col Annikath Kumaran Janardhanan Nair, Inf
 (IC-36240) Col Sukhpal Singh Shoker, Inf
 (IC-36497) Col (TS) Satish Kumar Dubey, Inf
 (IC-36555) Col Daljit Kumar, Inf
 (IC-36569) Col (TS) Shatrughna Singh, Inf
 (IC-36698) Col Anil Kumar Sharma, Sigs
 (IC-36776) Col Surinder Singh Mathur, AC
 (IC-36836) Col (TS) Ramesh Chander Sodhi, Arty
 (IC-36929) Col Jagdish Chandra Pandey, JAG

(IC-36939) Col Rajan Bakshi, AOC
 (IC-36956) Col (TS) Mohan Chandra, Inf
 (IC-37015) Col (TS) Anil Chaudhary, AC
 (IC-37100) Col Surinderpal Pahwa Singh, Arty
 (IC-37148) Col (TS) Manapragada Surya Prakash, AOC
 (IC-37249) Col (TS) Kalengada Muthanna Ganapathy, Inf
 (IC-37400) Col (TS) Kiran Pal Chauhan, Inf
 (IC-37427) Col (TS) Subhash Khilnani, Inf
 (IC-38244) Col (TS) Ashok Kumar Battoo, Engrs
 (IC-39786) Col (TS) Pramod Kumar Sharma, AAD
 (IC-40191) Lt Col Tek Singh, AOC
 (IC-40372) Col (TS) Randhir Singh, AOC
 (IC-40447) Lt Col Kamendra Singh Rathore, ASC
 (IC-40455) Col (TS) Sat Pal Sharma, ASC
 (SL-3045) Col (Sel) Nand Singh Chauhan, RO
 (SL-3263) Lt Col Shiv Nath Singh Tomar, AOC
 (SL-3392) Lt Col Digvijay Singh Rathor, Sigs
 (SL-3549) Lt Col Sukhlal Singh Dabas, AOC
 (SL-3563) Lt Col Sudarshan Kumar, EME
 (SL-3618) Lt Col Gajendra Bahadur Thapa, QM
 (SL-3632) Lt Col Keshmiri Lal Bains, EME
 (SL-3651) Lt Col Lok Nath, Sigs
 (SL-3729) Lt Col Charukutty B, EME

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 31 Aug 2008:—

Pers No., Rank, Name & Arm

(IC-27982) Col (TS) Amrit Gopal Singh Koijam, Inf
 (IC-30359) Col Sunil Kumar Mathur, Inf
 (IC-30413) Col Ajoy Ranadalal Podder, Arty
 (IC-30489) Col Sukhbir Singh, Inf
 (IC-30760) Col (TS) Virender Kumar Jesani, Inf
 (IC-30773) Col Pramod Kumar Chaudhry, ASC
 (IC-30798) Col Tejinder Pal Singh Grewal, Mech Inf
 (IC-30838) Col (TS) Rohtas Singh Malik, Inf
 (IC-31683) Col Hari Om Khandelwal, Arty
 (IC-31768) Col (TS) Anil Kumar, Inf
 (IC-31789) Col (TS) Luv Gadhoik, Inf
 (IC-31900) Col (TS) Vipin Jagdish Kohli, Inf

(IC-34189) Col Raj Kumar Chand, Inf
 (IC-34195) Col (TS) Pradeep Kumar Dar, AC
 (IC-34222) Col (TS) Ravi Karan Talwar, ASC
 (IC-34227) Col (TS) Vidya Bhushan Prasad, Arty
 (IC-34302) Col (TS) Sunil Kumar, Engrs
 (IC-34303) Col (TS) Shyam Mukund Parulkar, Sigs
 (IC-34334) Col (TS) Inder Paul Singh Gujral, Inf
 (IC-34503) Col Jagmohan Singh Grewal, AOC
 (IC-34609) Col (TS) Kizhakke Veedu Mohan, Inf
 (IC-34617) Col (TS) Ganesh Singh Bora, Inf
 (IC-34661) Col (TS) Kulkarni Ramesh Eknath, Engrs
 (IC-34709) Col Settaluri Srinivas, Sigs
 (IC-34827) Col Anup Kumar Saxena, AC
 (IC-35793) Col Arvind Kumar Mahajan, EME
 (IC-35864) Col (TS) Tilak Raj Sharma, Sigs
 (IC-36278) Col (TS) Denis Parmod Datta, Arty
 (IC-36833) Col (TS) Lakhvir Singh, Arty
 (IC-37043) Col (TS) Jasbir Singh, Arty
 (IC-37194) Col Gurmeet Singh, EME
 (IC-37196) Col (TS) Anil Dattatraya Palande, Inf
 (IC-37345) Col Jatinder Pal Singh, AOC
 (IC-37450) Col (TS) Anil Kumar, EME
 (IC-37529) Col (TS) Ramesh Kumar Avasthy, AOC
 (IC-38636) Col (TS) Madhurendra Mohan Kaul, Engrs
 (IC-38856) Col (TS) Dinesh Chandra Upadhyay, Inf
 (IC-39991) Col (TS) Rajinder Kumar Yadav, Arty
 (IC-40089) Col (TS) Thakur Karan Singh, Inf
 (IC-40226) Col (TS) Tandra Venkata Suryanarayana, Murthy, Inf
 (IC-40357) Col Virendra Singh Mall, AOC
 (IC-40550) Col Tejender Pal Singh, ASC
 (RC-988) Maj Prakash Chand Verma, Inf
 (SL-2892) Col (TS) Laxman Singh Bajetha, Engr
 (SL-3318) Lt Col Suresh Prasad Awasthi, QM
 (SL-3331) Lt Col Rajinder Kumar Katoch, RO
 (SL-3513) Lt Col Hari Ram, RO
 (SL-3666) Lt Col Jagdish Chander Sharma, RO
 (SL-3712) Lt Col Bhupinder Singh Chandel, EME
 (SL-3911) Lt Col Hari Chand, Engrs

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 30 Sep 2008:—

Pers No., Rank, Name & Arm

(IC-30371) Col (TS) Mahendra Pratap Sharma, Inf

(IC-30693) Col Akhilesh Kumar Das, EME

(IC-30765) Col (TS) Chander Kant Kadian, Inf

(IC-31039) Col Tej Singh Dalal, AOC

(IC-31121) Col Ramseshan Subash, ASC

(IC-31371) Col (TS) Udai Singh Rathore, AOC

(IC-31474) Col Devinder Yadav, AOC

(IC-31687) Col Inderesh Kumar Jain, AC

(IC-31690) Col (TS) Vinod Kumar Arora, Inf

(IC-31752) Col (TS) Karl Leopold Da Gama Rose, Int Corps

(IC-31874) Col (TS) Swarn SS, Arty

(IC-31875) Col (TS) Sahi SP, Arty

(IC-34135) Col Partha Sarathy Ganguly, Inf

(IC-34163) Col (TS) Padhye RP, Arty

(IC-34201) Col (TS) Ravi Diwan, AC

(IC-34217) Col Anand Swroop, AC

(IC-34228) Col Vayalipurayathu John Cheriyan, AOC

(IC-34236) Col (TS) Pranab Baidya, Arty

(IC-34451) Col (TS) Rachhpal Chand, AC

(IC-34591) Col (TS) Dalwinder Singh, Inf

(IC-34602) Col (TS) Sudhir Rajnikant Upadhyay, Inf

(IC-34825) Col Rajinder Singh Jasrotia, Inf

(IC-34985) Col Gowardhan RB, Arty

(IC-35436) Col (TS) Ratneshwar Prasad Singh, Engrs

(IC-35612) Col (TS) Joginder Singh Badotra, Inf

(IC-35884) Col (TS) Asim Rajan Das, EME

(IC-35885) Col (TS) Anil Kulshrestha, EME

(IC-36214) Col Kunwar Singh Aithani, Inf

(IC-36227) Lt Col Deepak Vasantrao Mandlik, Inf

(IC-36472) Col (TS) Madan Gopal Singh, Inf

(IC-36721) Col Anil Talwar, AC

(IC-36923) Lt Col Dinesh Vaid, AC

(IC-37023) Col Datta P, AAD

(IC-37030) Lt. Col Pramjit Singh Kohli, ASC

(IC-37372) Col (TS) Balachandra Ganapathy Cariapa, Inf

(IC-37380) Col Devgun TR, Arty

(IC-37408) Col (TS) Surender Singh Dalal, AOC

(IC-37428) Lt Col Hormazd Peshotan Vasuna, Inf

(IC-37433) Col (TS) Praveen Kumar Mehta, Int Corps

(IC-37435) Lt Col Baljit Singh Ahlowalia, AOC

(IC-37440) Col (TS) Kamaljit Singh Kamboj, EME

(IC-37443) Col (TS) Rajiv Manchanda, AOC

(IC-39474) Col (TS) Rana Shashi, Inf

(IC-40075) Col (TS) Raj Kumar Singh, ASC

(IC-40510) Col (TS) Vijay Kumar Sawant, ASC

(IC-40565) Col (TS) Narinder Sharma, AOC

(IC-40646) Lt Col Suresh Kumar, AOC

(IC-40669) Col (TS) Navdeep Singh Solanki, Sigs

(IC-40779) Col Suresh Kumar, ASC

(IC-40979) Lt Col Kanti Lal Devera, ASC

(IC-41022) Lt Col Pardeep Naithani, ASC

(RC-1024) Maj Pradip Kumar Baruah, EME

(SL-3161) Lt Col Balbir Singh, RO

(SL-3250) Lt Col Subodh Chandra Mandal, Sigs

(SL-3393) Lt Col Ravindra Nathan KV, Sigs

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 31 Oct 2008:—

Pers No., Rank, Name and Arm

(IC-31028) Col (TS) Shivdev Singh, Arty

(IC-31158) Col (TS) Rajinder Singh Slathia, AAD

(IC-31182) Col (TS) Pradip Singh, AOC

(IC-31412) Col (TS) Vivekanand Bhardwaj, Inf

(IC-31470) Col (TS) Arun Kumar Garg, Inf

(IC-31522) Col (TS) Ravi Shanker Singh, AOC

(IC-31674) Col Gurdeepinder Singh Dhillon, AC

(IC-31780) Col Rajiv Saxena, Arty

(IC-31803) Col (TS) Ashwani Kumar Tinjani, Mech Inf
 (IC-34140) Col (TS) Deb Kumar Sarkar, Arty
 (IC-34166) Col Bhupendra Singh, Mech Inf
 (IC-34209) Col (TS) Dig Vijaya Singh Pathania, Inf
 (IC-34484) Col Suresh Prakash Kabra, AAD
 (IC-34520) Col (TS) Anil Gopinath, AC
 (IC-34562) Col (TS) Pranab Kumar Das, Arty
 (IC-34659) Col Vinay Kumar Sadanand Kumta, EME
 (IC-35054) Col Vijay Prakash Singh, Sigs
 (IC-35812) Col (TS) Jagvinder Mohan Sharma, AEC
 (IC-36232) Col Harjit Singh Hunjan, Arty
 (IC-36571) Col (TS) Hardip Singh, AC
 (IC-36750) Col Jyotheen Robin Hermon, Inf
 (IC-36783) Col (TS) Rajender Singh Ahlawat, Inf
 (IC-36814) Col (TS) Kailash Nath Jetly, Inf
 (IC-36902) Col (TS) Satya Prakash Singh Panwar, Inf
 (IC-36948) Col Choppalli Anantha Jagannadha Swamy, Sigs
 (IC-36951) Col Vikas Anand, AC
 (IC-36994) Col (TS) Rajagopalan Venkatesan, Engrs
 (IC-37095) Col (TS) Gajinder Pal Singh Katal, Inf
 (IC-37136) Col (TS) Harsukh Singh Pall, AC
 (IC-37181) Col Sukumar Banerjee, AC
 (IC-37265) Col (TS) K Mohan Dasan, Arty
 (IC-37267) Col (TS) Shirish Vasant Wakhare, Sigs
 (IC-37355) Col Ranbir Singh, Inf
 (IC-37362) Col (TS) Gurjit Singh Brar, AAD
 (IC-37390) Col (TS) Vijay Sharma, Arty
 (IC-37432) Col (TS) Deepak Adib, AC
 (IC-38258) Col Pancham Singh Tomar, EME
 (IC-40046) Col Tara Chand, Inf
 (IC-40404) Col (TS) Bodh Raj Sharma, Sigs
 (IC-40506) Col Girdhari Nath Goswami, ASC
 (IC-40575) Col (TS) Raghbir Singh, Arty
 (IC-40613) Col (TS) Gopal Lal Sharma, Inf

(IC-40622) Col (TS) Sukhdev Singh Bhullar, AC
 (RC-1070) Maj KP Joseph, EME
 (RC-978) Maj Sasidharan Nair PR, Engrs
 (SL-3027) Lt Col Janam Singh Guleria, RO
 (SL-3048) Col Ansuya Prasad Kumeri, Engrs
 (SL-3251) Lt Col Harbhajan Singh Grover, Sigs
 (SL-3402) Lt Col Gurcharan Singh, AOC
 (SL-3541) Lt Col Sham Dass Sharma, AEC
 (SL-3575) Lt Col Joginder Singh, EME
 (SL-3700) Lt Col Ganesh Nath Bhandari, Sigs
 (SL-3747) Lt Col Onkar Nath Tiwari, RO
 (SL-3813) Lt Col Jagjit Singh, EME
 (SL-3821) Lt Col Om Prakash Awasthi, EME

The President is pleased to retire the under mentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 30 Nov 2008:—

(IC-30393) Col Shamsher Singh, Inf
 (IC-30522) Col (TS) Darab Singh, AC
 (IC-30834) Col Vikram Singh Negi, ASC
 (IC-30850) Col (TS) Ashok Kumar Anand, Sigs
 (IC-31010) Col (TS) Rashpal Singh Samkaria, Inf
 (IC-31085) Col Yashpal Singh Wadhwa, Inf
 (IC-31161) Col Tarun Grover, AOC
 (IC-31363) Col Ajaytaj Singh, AC
 (IC-31419) Col Naveen Chopra, Int Corps
 (IC-31464) Lt Col Harish Hukmatrai Gajria, Inf
 (IC-31503) Col Ronald Ashoke Andrew Rajkumar, Inf
 (IC-31534) Col (TS) Ajay Kumar, Inf
 (IC-31837) Col (TS) Anil Kumar, Arty
 (IC-34168) Col Sarbjit Singh, Inf
 (IC-34199) Col Bhupendra Singh Rehal, Arty
 (IC-34324) Col (TS) Bhagwant Kishor Datt Sharma, AEC
 (IC-34615) Col (TS) Subramanian Kameswara Ramanathan, Arty
 (IC-34644) Col (TS) Narendra Singh Mahara, ASC

(IC-34694) Col (TS) Pradyot Baran Sarkar, Engrs
 (IC-35405) Col (TS) Dal Singh, Engrs
 (IC-35410) Col (TS) Devenda Singh Mehra, EME
 (IC-35438) Col (TS) Indu Prabhakar Singh, EME
 (IC-35827) Col Satish Yashpal Mehta, EME
 (IC-36439) Col (TS) Jaswinder Pal Singh, Arty
 (IC-36594) Col (TS) Vijya Kumar Seth, Inf
 (IC-36758) Col (TS) Penumurthy Venkata Durga Prasad, Inf
 (IC-37286) Col (TS) Rajinder Singh Behl, Inf
 (IC-37377) Col (TS) Balbir Singh Dhalta, Inf
 (IC-37436) Col (TS) Rampal Rameshkumar Ajudhyanath, Engrs
 (IC-39134) Lt Col Padmanabhan P., Arty
 (IC-39196) Col (TS) Vijayan S, Arty
 (IC-39285) Col (TS) Surendra Singh Shekhawat, ASC
 (IC-39626) Col (TS) Jagat Singh, Inf
 (IC-39933) Lt Col Dhaneswar Samal, AAD
 (IC-40396) Col (TS) Raj Kumar Munshi, Arty
 (RC-0980) Maj Aravindakshan C, Sigs
 (RC-1019) Maj Mohanan M R, Engrs
 (RC-1031) Maj Sukhdev Singh, Inf
 (RC-1059) Maj Kishore Singh Sekhawath, Inf
 (SL-3554) Lt Col Ved Prakash, EME
 (SL-3678) Lt Col Manayath Gaspar Savy, EME
 (SL-3781) Lt Col Tarlok Singh Bajwa, QM

The President is pleased to retire the under mentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 31 Dec 2008:—

Pers No., Rank, Name & Arm

(IC-30495) Col (TS) Mridul Barkakoti, Inf
 (IC-30739) Col Ajeet Singhvi, Inf
 (IC-30851) Col (TS) Bharat Kumar Deka, Sigs
 (IC-31018) Col Suresh Jetley, Inf
 (IC-31393) Col (TS) Prabhat Singh Jasrotia, Inf
 (IC-31397) Col (TS) Ramesh Sharma, AC
 (IC-31776) Col Veer Karan Sehgal, AOC

(IC-31841) Col (TS) Hanumant Singh, Inf
 (IC-34126) Col Praveen Ahluwalia, Arty
 (IC-34433) Col (TS) Sukhvir, Arty
 (IC-34618) Lt Col Seshadri Ramanujam, Inf
 (IC-35064) Col (TS) Pradeep Kumar Singh, Sigs
 (IC-35092) Col (TS) Sanjiv Alipuria, Engrs
 (IC-35452) Col (TS) Anurag Bhargava, Engrs
 (IC-35823) Col (TS) Anthony Anthonisamy, EME
 (IC-35855) Col Gurucharan Singh Guron, EME
 (IC-35940) Col Jagdish Kumar, ASC
 (IC-36664) Col Sunil Kumar Chand, Inf
 (IC-36920) Col (TS) Pramod Swarup Gupta, Arty
 (IC-37014) Col (TS) Prithvi Raj Singh, AC
 (IC-37162) Col (TS) Birendra Mohan, Engrs
 (IC-37327) Col (TS) Shalig Ram, ASC
 (IC-37424) Col (TS) Mahesh Rajan Bose, EME
 (IC-38216) Col (TS) Pradeep Kumar Chauhan, Engrs
 (IC-38622) Col (TS) Sudhir Kumar Jha, EME
 (IC-38692) Col (TS) Tarun Borah, Inf
 (IC-38835) Col (TS) Ganesh Kumar, Inf
 (IC-39421) Col (TS) Kartikey Sinha, EME
 (IC-39477) Col (TS) Puran Chand Chandel, Arty
 (IC-39486) Col Shishupal Singh, Int Corps
 (IC-39671) Col (TS) Raghuvinder Singh Ghotra, Arty
 (IC-40102) Col Balraj Singh Cheema, Arty
 (IC-40144) Col Rajendra Prasad Joshi, Inf
 (IC-40310) Col (TS) Karna Ram Dhaka, Sigs
 (IC-40494) Col (TS) Dubey Shiv Shankar, Arty
 (IC-40525) Col (TS) Bheem Singh Bhati, Arty
 (IC-40535) Col (TS) Parshotam Chand Nag, ASC
 (RC-0977) Maj Thomas KS, Sigs
 (RC-0981) Maj Padhmanaban, Engrs
 (RC-0982) Maj Jai Ram Tanwar, Mech Inf
 (RC-0983) Maj Balakrishnan M, Arty
 (RC-0984) Maj Rabi Shankar Pandey, Kumaon

(RC-0985) Maj Om Prakash Tripathi, EME	(RC-1026) Maj Balwinder Singh, Arty
(RC-0986) Maj Bodh Raj, JAK LI	(RC-1027) Maj Rajan CO, EME
(RC-0987) Maj Arvind Kumar Thapa, Inf	(RC-1028) Maj Sree Dharan Pillai TP, Sigs
(RC-0990) Maj Sarat Chandra Mahanta, EME	(RC-1030) Maj C Purushothaman, Sigs
(RC-0991) Maj Krishan Lal, Mech Inf	(RC-1032) Maj Devendra Pal, Inf
(RC-0992) Maj Prafulla Chandran E, EME	(RC-1033) Maj Raghbir Singh, Inf
(RC-0993) Maj Sri Munna Singh, Int Corps	(RC-1034) Maj Binod Kumar Thapa, Inf
(RC-0995) Maj Jagdish Prasad, Inf	(RC-1035) Maj CP Gopimohan, Engrs
(RC-0997) Maj Krishan Bahadur, Inf	(RC-1036) Maj P Devadhas, Engrs
(RC-1000) Maj Balkar Singh, Inf	(RC-1037) Maj Sarvan Singh, Inf
(RC-1001) Maj Ghasi Ram Choudhary, Inf	(RC-1038) Maj P Sekar, Sigs
(RC-1003) Maj Dharampal Yadav, Arty	(RC-1039) Maj Sukhvinder Singh, AC
(RC-1006) Maj G Seeniraj, Inf	(RC-1040) Maj Chok Bahadur Thapa, Inf
(RC-1007) Maj Dharam Pal, Sigs	(RC-1041) Maj Shriman Lal, AC
(RC-1008) Maj Birendra Singh Tomar, Rajput	(RC-1043) Maj Kamalesh Nandi, CMP
(RC-1010) Maj Ganesh Chand, Engrs	(RC-1044) Maj Gaje Singh, AC
(RC-1011) Maj Belavalekar RG, Sigs	(RC-1045) Maj Balwinder Singh, Sigs
(RC-1013) Maj Inder Bahadur Gurung, Inf	(RC-1046) Maj Suresh Chandra Yadav, EME
(RC-1014) Maj M Muthuram, Engrs	(RC-1047) Maj Varughese PC, EME
(RC-1015) Maj Vinod Kumar Singh, Sigs	(RC-1050) Maj Biswanath Chakladar, Arty
(RC-1016) Maj Gharu Ram Dogra, EME	(SL-3812) Lt Col Satendra Narayan Singh, EME
(RC-1017) Maj Bahadur Singh, EME	(SL-3366) Lt Col S Chellepandian, Engrs
(RC-1018) Maj Jasminder Singh Bhandher, EME	(SL-3394) Lt Col Chhatra Pal Singh, Sigs
(RC-1020) Maj Ram Mohan Pandey, Sigs	(SL-3485) Lt Col Abdul Hamid, Sigs
(RC-1021) Maj Muraleedharan Nair P, EME	(SL-3578) Lt Col Narayanan N, EME
(RC-1022) Maj Harbans Lal, Inf	(SL-4026) Lt Col BR Roy, RO
(RC-1023) Maj Uma Shankar Thakur, Engrs	
(RC-1025) Maj Kuldip Singh, Sigs	

JAYANTA CHAKRABARTY

Dy Dir

MS-7A

for Military Secretary